

सेजस्थान
महा दिवाली
 धन बढ़ेगा, घर बसेगा
15 लाख का लाभ मिलेगा
 दिवाली पर 15 लाख रेट बढ़ेगी!



दिवाली बाद करोड़ों में मिलेगी कोठी !

गिनती की कुछ ही कोठी बची हैं।

FIXED PRICE & RENTAL				
PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	FIXED PRICE	PROPOSED RENTAL (AFTER POSSESSION)
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	63.45 LACS	22,000
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	70.50 LACS	25,000
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	77.55 LACS	28,000
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	84.60 LACS	30,000
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	98.70 LACS	40,000
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.41 CRORE	50,000

KEDIA
सेजस्थान
 KOTHI & WALK-UP APARTMENT

अजमेर रोड़, जयपुर

POSSESSION: DEC. 2025

बड़ी-बड़ी कोठी, बड़े-बड़े फ्लैट



विचार बिन्दु

अविश्वास आदमी की प्रवृत्ति को जितना बिगाड़ता है, विश्वास उतना ही बनाता है। -धर्मवीर भारती

यह देश है ठगने वालों का.....

वर्ष 1957 में एक फिल्म आई थी 'नया दौर'। यह फिल्म काफी प्रसिद्ध हुई और हिट भी हुई। इस फिल्म में एक गाना था "यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का....."। यह फिल्म स्वतंत्रता के 10 वर्ष बाद बनी थी और समय पूरे देशवासियों में एक नए उत्साह का संचार हो रहा था और वे सभी स्वतंत्र भारत में अपने सुनहले भविष्य की ओर देख रहे थे। इसीलिए समय इस फिल्म का नाम भी नया दौर रखा गया।

अब जबकि स्वतंत्र हुए हमें 77 वर्ष हो चुके हैं, और इस फिल्म को रिलीज हुए भी 67 वर्ष हो गए हैं, यदि आज इसी तर्ज पर किसी गीतकार को गीत लिखना होता, तो उसके बोल कुछ इस प्रकार के होते, "यह देश है ठगने वालों का....."।

ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझना उपयुक्त होगा। सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है की चोरी, डाका और ठगी एक समान समान नहीं हैं। चोरी जहां व्यक्ति को अनुपस्थित में और जानकारी के बिना की जाती है वहीं डाका खुलेआम डरा-धमका कर डाला जाता है, जबकि ठगने वाला व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह किसी की भलाई का काम कर रहा है किंतु वास्तव में वह जिसकी भलाई का दावा करता है, वास्तव में उसी को क्षति पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार के कृत्य को ठगी कहा जाता है।

प्रतिदिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कैसे भोले भाले लोग अनेक प्रकार से ठगे जा रहे हैं। आधुनिकतम तकनीक एवं डिजिटल प्रगति ने, साधारण नागरिकों को ठगने का एक अच्छा माध्यम उपलब्ध करा दिया है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं कि कैसे ई-कॉमर्स वाली कंपनियां लोगों को खराब समान देकर ठग रही हैं। विदेशी पर्यटक महंगे नत्त खरीद कर ले जाते हैं और बाद में पता लगता है कि उन्हें साधारण पथर दे दिए। ऐसी अनेक शिकायतें मुझे निदेशक, पर्यटन के रूप में मिलती थीं।

अनेक महिलाएं उन व्यक्तियों के द्वारा ठगी गई हैं, जिन्होंने उनके स्वर्ण आभूषणों को चमकाने का दावा किया था और इसी प्रक्रिया में वह आभूषणों में से काफी सोना निकाल कर ले गए।

आजकल तो आपके पास किसी मेल अथवा मैसेज में प्राप्त लिंक पर क्लिक करते ही आपके बैंक से सारा पैसा निकल सकता है। 'वीडियो ऑस्ट्रेट' का एक नया तरीका ढूंढा है ठगों ने। इसके माध्यम से लच्छेदार बातों से इस प्रकार का वातावरण बना देते हैं कि जिसे ठगा जा रहा है वह जाकर भी उस प्रक्रिया से अलग नहीं हो सकता। यह सब तो तब है जबकि तकनीकी प्रगति बहुत तेज गति से हुई है। पहले तो केवल निरक्षर और गांव के लोग ही ठगे जाते थे, किंतु अब तो ऐसे भी कई लोग ठगे गए हैं जो उच्च प्रशासनिक और पुलिस पदों पर हैं। साइबर ठगी के लगभग 70000 के मामले प्रतिवर्ष दर्ज हो रहे हैं। इससे कई गुना अधिक ऐसे मामले हैं जो पुलिस में दर्ज होते ही नहीं, क्योंकि जो ठगे जाते हैं उन्हें तो यह भी नहीं पता कि, किस प्रकार से ठगी के दुष्क्रम से बाहर निकलना है।

ठगने के इस धंधे में केवल निजी लोग ही लगे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार भी जनता को ठगने में पीछे नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जनता सत्ता के हाथों ही सबसे अधिक ठगी जा रही है। जब चुनाव के दौरान राजनीतिक दल प्रचार करते हैं तो विभिन्न प्रकार के लुभाने नारे लगते हैं किंतु वास्तविकता तब पता चलती है जब महादत्ता उसे जितता देता है। वे उसका शोषण, पहले से भी अधिक करने के उपक्रम में लग जाते हैं।

प्रत्येक क्षेत्र, जिससे सामान्य जन का वास्ता पड़ता है, वहां लगभग प्रतिदिन वह ठगा जा रहा है। उसे शायद नहीं पता कि जो वापु, सांस के रूप में प्रतिक्रिया लेता है उससे कितने हानिकारक तत्व उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। यह उसे तभी पता लगता है जब वह कैसर जैसी गंभीर बीमारी से टास्ट हो जाय। यह सब उस विभाग की मिलीभगत के कारण जिसे प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में जाएँ तो वहां डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करने वाले भी मरीज को ठगने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए वह चाहे अनिवार्य जांचें करवाएँ अथवा महंगी दवाइयाँ लिखें, क्योंकि इन दोनों से ही उसे अपने हिस्से की राशि तो कमीशन के रूप में प्राप्त होनी ही है।

हाल ही में जब नकली दवाइयाँ का खजौरा पकड़ा गया तो जिस निर्माता का नाम उन दवाइयाँ के पैकेजिंग पर लिखा गया था, उसने तो यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये दवाइयाँ उससे द्वारा बनाई ही नहीं गई हैं। अब उस आम व्यक्ति का क्या होगा, जिसने यह दवाइयाँ किसी अच्छी प्रतिष्ठित कंपनी की समझ कर खरीदी लीं। आज तक किसी दवा विक्रेता या स्टॉकिस्ट को नकली दवाएँ बेचने के आरोप में सजा हुई हो, ऐसा पढ़ने और देखने में नहीं आया है। इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि नकली दवाएँ लेने के कारण और गलत जांच होने के कारण कितने लोग न केवल आर्थिक रूप से अपितु शारीरिक रूप से भी कष्ट से गुजरने को मजबूर हुए हैं।

आजकल, सरकारी नौकरी के लिए चयन करने वाली संस्थाएँ, जैसे लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग भी बेरोजगार लोगों को ठगने में पीछे नहीं हैं। करोड़ों रुपए की फीस वसूल करने के बाद भी वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाते कि पूरी ईमानदारी के साथ भर्ती परीक्षा आयोजित हो जाए और योग्यतम अभ्यर्थी चयनित होकर सरकारी नौकरी में आए। एक यही काम संस्थाओं को सौंपा गया था और वह भी यह नहीं कर पाए हैं। यह जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हैं, ताकि वे बेरोजगारों को ठग कर, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकें।

सही बात तो यह है कि हम में से प्रत्येक, प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की ठगी का शिकार हो रहा है, कभी जाने में, कभी अनजाने में। इससे उबरने का कोई रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। देखना है, क्या कोई सरकार या नागरिक संगठन, इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई करके, देश के नागरिकों को ठगी का शिकार होने से बचाने में सफल हो पाता है या नहीं?

वकीलों का काम अपने मुक्किलों को न्यायालय के माध्यम से जल्द से जल्द न्याय दिलाने का होता है। किंतु वे लंबे समय पर केवल तरीख लेने का ही काम करते हैं। लगभग आधे प्रकरणों में सरकार एक पक्षकार होती है। सरकारी वकील, सरकार के पक्ष में अपनी योग्यता का उपयोग करने के बजाय विपक्षी-निजी पक्षकार के हित में काम करने लगते हैं। इसी कारण सरकार अधिकतर प्रकरणों में हार जाती है।

खाद्य सामग्री बेचने वाले या फल बेचने वाले अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं ताकि फल एवं सब्जी अधिक आकर्षक लगे या फिर समय से पहले उन्हें पका लिया जाय। दोनों ही मामलों में, कुल मिलाकर इस ठग प्रवृत्ति का शिकार तो आम नागरिक को ही होना पड़ता है। यह सब केवल इसलिए है कि आम नागरिक को मूर्ख बनाकर उसे ठगा जाए और नागरिक यह समझ ही नहीं पाए कि उसे किस प्रकार से ठगा जा रहा है।

वर्तमान में, पूरे देश में जो व्यापार सबसे अधिक फल फूल रहा है वह है ठगने का। बिल्डर आपको प्रलैट बेचते समय यह कहेगा कि इतना सस्ते बिल्डर आप परिया और कारपेट परिया है, किंतु जब आप फ्लैट का कब्जा लेने जाएंगे तो स्थिति बिल्कुल अलग मिलती है। आवासीय भवन के नाम पर आपको फ्लैट बेचे जाएंगे, लेकिन इस भवन में कई प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी बिल्डर पैसे लेकर कुछ क्षेत्र बेचे देते हैं। इसके कारण आवासियों को कई प्रकार की असुविधा झेलनी पड़ती है।

ठग ठग का सिलसिला लगभग सभी विभागों एवं सभी क्षेत्रों में पुरी तरह व्याप्त हो चुका है। खिलाड़ी चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक वह खेल संघ के पदाधिकारी की चापलूसी नहीं कर सके अथवा उनके गलत इरादों में उनका सहयोग देने के लिए तैयार ना हो जाए तो फिर उसका राष्ट्रीय टीम में चयन होगा लगभग असंभव है। क्या इस प्रकार के चयन के परिणाम स्वरूप, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलने से वंचित रह गए, वे अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेंगे? जब भी किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उसे किसी न किसी प्रकार से दबाया गया है, ताकि अन्य लोग भी इस प्रकार की ठगी को चुपचाप सहन करते रहें और उसके विरुद्ध कोई आवाज उठाने का साहस तक न करें।

कहा जाता है, ठग ही जाने, ठग की भांभा। लगता है ठगने की प्रतिस्पर्धा हो रही है कि के ठगने की कला में कौन कितना सिद्ध है? जो जितना पारंगत है उतना ही वह दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। ठगने में पाखंडी बाबाओं की कोई कमी नहीं है। वे विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों का शर्तिया इलाज करने का दावा करते हैं और भोली जनता उनके मार्केटिंग के जाल में फंस कर ठगी का शिकार हो जाती है। कई बार तो ये ठग, महिलाओं का यौन शोषण करने से भी नहीं चूकते। हमारे एक निकट परिचित ने अभी हाल ही में एक बड़ी धनराशि किसी तथा कथित आयुर्वेद विशेषज्ञ के हवाले कर दी, जबकि उन्होंने किसी प्रकार की तो कोई रसीद दी एवं न उन्होंने यह बताया कि वह किस प्रकार की दवाएँ उनको दे रहे हैं। जब उनसे इस बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने यहां तक कहा कि वह भगवान हैं और भगवान से कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति, अंध भक्ति के कारण खूब फल फूल रहे हैं। स्पष्ट है, ठगने के व्यापार में सभी लोग एक-दूसरे के सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार को कोप दित् हुए पर कभी नहीं पड़ती क्योंकि यह सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से ही ऐसा करने में सफल होते हैं।

मैंने बहुत विचार किया कि कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा जहां लोग ठगी से बचे हुए हैं, किंतु ऐसा कोई क्षेत्र दिखाई नहीं देता। सरकारी की लगभग सारी योजनाएं कुछ लोगों के द्वारा ठगी करने के कारण दलालों की बलि चढ़ गई हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि कैसे अनेक वृद्ध व्यक्तियों को मिल रही पेंशन उन्हें मृत घोषित करते हुए बंद कर दी गई, जब कि वे जीवित हैं। इसी प्रकार हजारों लोगों को राज्य से पलायन करना बता कर उनकी पेंशन बंद कर दी गई। मीडिया में ऐसे पीडित लोगों के नाम, फोटो के साथ प्रकाशित हुए हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि, जिस अधिकारी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई, उसके विरुद्ध कार्रवाई करके उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जवाबदेही की कमी के कारण ही ठगने का कारोबार तेजी से बढ रहा है।

सही बात तो यह है कि हम में से प्रत्येक, प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की ठगी का शिकार हो रहा है, कभी जाने में, कभी अनजाने में। इससे उबरने का कोई रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। देखना है, क्या कोई सरकार या नागरिक संगठन, इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई करके, देश के नागरिकों को ठगी का शिकार होने से बचाने में सफल हो पाता है या नहीं? अभी तो जिन नियामक संस्थाओं के ऊपर ठगी से बचाने की जिम्मेदारी है, वही इसे बढाने में लगी हुई प्रतीत होती है जैसे सेबी, बीमा नियामक अधिकरण, आदि आदि।

आइए, हम सब मिलकर देश को इस ठग संस्कृति से बाहर निकालने में एकजुट होकर प्रयास करें ताकि देश वासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद होने से बचाया जा सके। यदि ऐसा हो सका तो हमें यह नहीं कहना पड़ेगा "यह देश है ठगने वालों का....."

-अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

प्रजातांत्रिक प्रधान : कुछ बातें जो भूलनी नहीं चाहिए



डॉ. रामावतार शर्मा

यदि इतिहास के उस दौर पर एक नजर डाली जाए जब अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ, क्रांति हुई और वहां के सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन नव उदित देश के पहले राष्ट्रपति बने, उस समय जॉर्ज वाशिंगटन एक अति प्रिय और बड़े ताकतवर नेता थे परंतु देश में प्रजातंत्र स्थापित होते ही उन्होंने अमेरिका की सेना के कमांडर इन चीफ के पद से त्यागपत्र दे दिया। उस काल के हिस्सा से वे राष्ट्रपति एवं सेना प्रमुख दोनों पदों पर बने रह सकते थे परंतु उन्होंने एक अति प्रभावशाली पद का त्याग किया जिसे देश कर उनके प्रबल विरोधी किंग जॉर्ज तृतीय ने कहा था कि वाशिंगटन ने ऐसा करके बता दिया है कि वह इस समय के महानतम व्यक्ति हैं। अपने राष्ट्रपति काल के दूसरे दौर में वाशिंगटन ने इस पद से भी त्यागपत्र दे दिया ताकि कोई व्यक्ति दो बार से अधिक अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन

सके, तानाशाह न बन पाए और जनता का मत ही सर्वोपरि रहे। त्यागपत्र के बारे में उनका कहना था कि यदि पद पर बने रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो भविष्य में कोई अति प्रभावशाली व्यक्ति अपने आप को जीवनपर्यंत के लिए राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। वाशिंगटन के ऐसा करने के बाद ही अमेरिका में एक व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति पद को दो बार के लिए सीमित किया गया। वाशिंगटन बहुत ही लोकप्रिय कमांडर इन चीफ और राष्ट्रपति थे और उस समय चाहते तो आसानी से अपने आप को जीवनपर्यंत के लिए राष्ट्रपति घोषित कर सकते थे परंतु उन्होंने स्वेच्छा से पद त्याग कर जनता को सर्वोच्च रखा और अपने परिवार से कहा ;आओ, अब घर चलते हैं ;

जॉर्ज वाशिंगटन के बाद 44 और लोग अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर आए और उन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप सब ने अपने चार या आठ साल के कार्यकाल के बाद सत्ता वापिस जनता के हाथों में संपलनी दी, सिर्फ एक व्यक्ति के कुसित प्रयास को छोड़ कर और उस व्यक्ति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप अपने पिछले लोकतंत्र विरोधी प्रयास में असफल होने के बाद फिर से सत्ता को अपने हाथ में लेने को उत्सुक है परन्तु इस बार यह प्रयास जनता के हाथ से प्राप्त करने का

प्रयत्न है। देखा जाता है कि हर प्रजातांत्रिक देश में जनता का एक अच्छा खासा वर्ग तानाशाही या राजतंत्र का पक्षधर होता है। चूंकि अधिकतर घरों में एक तरह का पिता केंद्रित निरंकुश तंत्र कार्य करता है तो जनता का एक बड़ा वर्ग इसी तरह की व्यवस्था देश या राज्य में चाहता है। एक राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति के पक्ष में चलने वाली लहर इसी मानसिक सोच की तरफ इशारा करती है। लोकप्रियता वाले नारे, नस्ल या धर्म आधारित राजनीति, बदले की राजनीति और भय का निर्माण आदि किसी भी समाज में प्रजातंत्र को नष्ट करने के सर्वोच्च हथियार हैं जिनका चालाक नेता लोग जम कर उपयोग करते हैं। जॉन केलेडी डोनाल्ड ट्रंप के द्वितीय चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। केलेडी के अनुसार ट्रंप इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि अमेरिका के सामान्य नागरिक की दृष्टि में अमेरिका कैसा मान्य रहेगी, उसकी नजर में अमेरिका कैसा होना चाहिए। ट्रंप का एकाग्र उद्देश्य सत्ता पर कब्जा कर गोरे लोगों का प्रभुत्व कायम करना और सत्ता पर अपनी निरंकुशता बनाना है। देखा गया है कि जो भी लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए पागल बने होते हैं वे प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। उन लोगों के पद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चांसलर, प्रिय नेता आदि

कुछ भी हो सकते हैं, वे जनता द्वारा चुने हुए भी हो सकते हैं परंतु सत्ता को अपनी पकड़ में रखने का उनका स्वभाव को विश्व में एक जैसा होता है और वे सभी राष्ट्रीय स्वाभिमान, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सर्वोच्चता, नस्लवाद और किसी संभावित खतरों जैसे हथियारों का उपयोग कर सदैव के लिए सत्ता अपने पास रखने में प्रयत्नशील रहते हैं। ये लोग किसी भी स्थिति में जॉर्ज वाशिंगटन की तरह नहीं कहेंगे कि मैंने मेरा सर्वोत्तम भरे देश के लिए दे दिया है और अब समय आ गया कि वापिस घर चला जाए।

कोई भी शासक कितना भी बुद्धिमान हो परंतु वह आठ या दस वर्ष के बाद सिर्फ एक ढर्रे पर चलने लगता है। सत्ता के शिखर का अकेलापन उसमें नए विचार, नए दर्शन को विकसित नहीं होने देता है। एक पक्ष एवं आंतरिक सत्ता संघर्ष उसकी ऊर्जा को सत्ता में बने रहने के प्रयत्नों में नष्ट करने लगता है जो उसकी सोच में नयापन नहीं आने देता। सत्ता के शिखर पर, इसलिए, किसी भी व्यक्ति को दस वर्ष के बाद नहीं बने रहना चाहिए। एक पार्टी भले ही कई साल सत्ता में बनी रहे पर उसके नेतृत्व पर परिवर्तन देश और स्वयं उस पार्टी के लिए शायद एक बेहतर विकल्प होता है। जिस भी राजनीतिक ढांचे में एक ही व्यक्ति, परिवार या परंपरा का चर्चन

बना रहता है वह ढांचा एक समय के बाद कमजोर हो कर बिखर जाता है। परंतु सत्ता का मोह ऐसा होता है कि एक व्यक्ति तो सत्ता से चिपका रहना ही चाहता है, पार्टी में भी विकल्प ढूंढने की हिम्मत नहीं होती है। भय और सत्ता प्रेम से उपजी यह मानसिकता देश में नवीनता नहीं लाने देती है और इसी के कारण हर अति प्रभावशाली देश और साम्राज्य एक समय के बाद बिखर जाता है। रोमन तथा ओटोमन साम्राज्य इसी मानसिकता के शिकार हुए थे और आज अमेरिका का घटना वैश्विक प्रभाव भी उसके आने वाले ह्रास को इंगित कर रहा है क्योंकि वहां अब अधिकतर नेता वयोवृद्ध उम्र के होने लगे हैं। दुनिया से प्रजातांत्रिक देशों के नागरिकों को भी अपने सोच में नवीनता लानी पड़ेगी वरना हर प्रजातंत्र एक प्रभु तंत्र का रूप ले लेगा और पक्ष निरंकुशता कितने ही नागरिकों से उनके जोने का अधिकार छीन लेगी। इस स्थिति का एक अन्य खतरनाक पहलू समाजों का विघटन है ही जहां छोटी मानसिकता के लोग सोशल मीडिया द्वारा जाति आधारित द्वेष फैलाने में सफल हो जाएंगे क्योंकि उनकी नजर में राजनीतिक और सामाजिक उन्मूलन पर चढ़ने के लिए यह सबसे आसान मार्ग है।

-डॉ. रामावतार शर्मा, (चिकित्सक एवं लेखक)

प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा

बाड़मेर मॉडल : मंत्री के.के.बिश्नोई

बाड़मेर, (निसं)। जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी दिव्यांगजन वंचित नहीं रहें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजलाल ने दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। बाड़मेर जिला प्रशासन से उम्मी दिशा में पहल करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं की धरालत पर क्रियान्वित का सराहनीय कार्य किया है। इसकी बदौलत दीपावली से पहले दिव्यांगजनों को खुशियों की सौगात मिली है। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के.बिश्नोई ने सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टैडियम में आयोजित दिव्यांग सहायक अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।

उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के.बिश्नोई ने कहा कि दिव्यांगजनों के जीवन को सशक्त करने की दिशा में राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इनका लाभ राज्य के प्रत्येक दिव्यांगजन तक पहुंच सके, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बाड़मेर जिला प्रशासन की अमिशन पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में बाड़मेर मॉडल को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष योग्यजनों को आत्म-सम्मान के साथ

वेब पोर्टल की शुरुआत होने से दिव्यांग अपने घर से आनलाइन सुविधाओं का फायदा ले सकेंगे।

जीवन सशक्त करने तथा राज्य की प्रगति में योगदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल की शुरुआत होने से दिव्यांग अपने घर से आनलाइन सुविधाओं का फायदा ले सकेंगे। उन्होंने एक ही स्थान पर समुचित जानकारी मिल सकेगी। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के.बिश्नोई, शिव विधायक रविन्द्रसिंह भाटी, जिला कलेक्टर टीना डाबी, सभापति दिलीप माली, प्रधान रूपाराम सारण, समाजसेवी दीपक चव्वासरा, रमेश शर्मा, प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक, लक्ष्मण बडेर, भामाशाह एवं उद्यमी किशोरसिंह कानोड, रमेशसिंह इंदा, राजूदास भील ने दिव्यांगजनों को दुःसाइकिंले एवं सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि अक्टूबर माह में बाड़मेर जिला प्रशासन ने उपखंड स्तर पर दिव्यांगजन शिविरों के आयोजन करने के साथ उनको जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित

करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए जिला स्तर से मेडिकल बोर्ड का गठन करते हुए उनको दिव्यांगजन शिविर में भेजा गया। इससे दिव्यांगजनों को खासी सहूलियत हुई। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान 7 हजार व्यक्तियों का पंजीयन करते हुए 2031 पात्र दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र अनुमोदित किए गए। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों का दिव्यांग फ्रेंडली होने संबंधित ऑडिट कारवाया गया है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि बाड़मेर मॉडल को राज्य सरकार पूरे प्रदेश में लागू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में द्वितीय चरण के दौरान दिव्यांगजनों को बेहतररी सुविधाएं सुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने कहा कि दिव्यांगजन का आत्मबल बढ़ाने एवं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। समाजसेवी रमेश शर्मा ने कहा कि आमजन दिव्यांगजन की हरसंभव मदद करने के लिए आगे आएँ। उन्होंने दिव्यांगजनों को हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में जिला कलेक्टर डा. मुकेश पचौरी ने कहा कि

जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत, यूआईटी सचिव ब्रवणसिंह राजावत, उपखंड अधिकारी वीरमराम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेंद्रप्रतापसिंह भाटी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मूलूरथिया यादव, कुष्णसिंह राणीगंण, भगवान बारुपाल, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अनंत आर्य, विकास अधिकारी औकारदान समेत विभिन्न जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

दिव्यांगजनों को वितरित किए सहायक उपकरण : आदर्श स्टैडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 112 ट्राई साइकिल, 47 व्हीलचेयर, 34 श्रवण यंत्र, 138 वैशाद्यी एवं 27 ब्लाइट स्टीक वितरित की गईं।

दिव्यांगों के लिए विशेष पोर्टल लांच : कार्यक्रम में बाड़मेर जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांगजनों को सुविधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए वेब पोर्टल को लांच किया गया। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि इस वेब पोर्टल से दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सुगम और सुलभ जानकारी उपलब्ध मिल सकेगी। इस पोर्टल पर केन्द्र एवं राज्य

सरकारी की जन कल्याणकारी योजनाओं, जियो टैगिंग के साथ सार्वजनिक स्थानों की सूची, विशेष रूप से उपलब्ध बिकिता सेवाओं, दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं कानून के साथ उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवो बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान के दौरान बेहतररीन कार्य करने पर सेवका उपखंड अधिकारी बद्रीनारायण बिश्नोई, चौहटन तहसीलदार कृष्णा इंकिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र प्रतापसिंह भाटी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दिलीपसिंह, महेन्द्रसिंह, डा. कंवराराम, डॉ. महेन्द्रसिंह, डॉ. मोहित कुमार, डॉ. भगवानसिंह, डॉ. भानुप्रतापसिंह को सम्मानित किया गया। वहीं दुःसाइकिल वितरण करने के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के.बिश्नोई, जिला कलेक्टर टीना डाबी एवं अन्य अतिथियों ने दिव्यांगजनों का माल्यांगन किया। इस दौरान कई दिव्यांगजनों की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। शिविर में जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे दिव्यांगजनों ने बताया कि यह पहला मौका है जब उनका आवास से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हुआ।

बीमा कंपनी को नौ फीसदी ब्याज दर से

मुआवजा अदा करने के आदेश

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी ने अपने विस्तृत फैसले में यह प्रतिपादित किया है कि अधिकरण के समक्ष लिखित जवाब के विपरीत जाकर बीमा कंपनी नया तर्क पेश कर मृतक बीमा चालक की दुर्घटना में लापरवाही नहीं बता सकती। उन्होंने मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण जोधपुर महानगर द्वारा मुआवजे पर ब्याज दर को 6 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी ब्याज दर से भुगतान करने का बीमा कंपनी को निर्देश दिया है।

दरअसल 8 सितम्बर 2014 को हुई वाहन दुर्घटना में कार में सवार चारों व्यक्तियों की मौत हो गई। ट्रक टोला सहित जवाबदेह है।

वाहन दुर्घटना में कार में सवार चार व्यक्तियों की मौत हुई थी


चालक की लापरवाही से हुई टक्कर से मौत की आगोश में समा गए तीन मृतक के दावेदार की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने हाइकोर्ट के समक्ष बहस करते कहा कि अधिकरण ने प्रथम सूचना रपट, चार्जशीट आदि दस्तावेज से सही निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना ट्रक टोला चालक की गलती से हुई है। सौ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी मुआवजे के वास्ते 6 फीसदी ब्याज

सहित जवाबदेह है। अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि वर्तमान ब्याज दर को देखते हुए 9 फीसदी ब्याज दिलाया जाए। इस पर बीमा कंपनी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर नक्शा मौका पेश कर कहा गया कि कार चालक ने गलत ब्याज में आकर सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मारकर दुर्घटना काीत की है। इसलिए अपील कर कर दावा खारिज किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश डॉ नूपुर भाटी ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अधिकरण के समक्ष बीमा कंपनी ने यह जवाब दिया कि कोहरे के कारण खड़े ट्रक टोला को कार चालक ने पीछे से आकर टक्कर

मारी, लेकिन हाइकोर्ट के समक्ष पेश अपील और बहस में इससे बिलकुल ही विपरीत जाकर यह तर्क काटें माने जाने योग्य नहीं है कि कार चालक ने गलत दिशा में जाकर सामने से आ रहे ट्रक टोला को टक्कर मारी हो। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी अपने जवाब से बाधित है और उन्हें अब विरोधाभासी तर्क की अनुमति नहीं दी सकती है। उन्होंने कहा कि दावेदारों ने प्रथम सूचना रपट और चार्जशीट से यह साबित किया है कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही और गलती से हुई है, जबकि बीमा कंपनी ने अधिकरण के समक्ष न तो कोई गवाह पेश किया और न ही ट्रक टोला चालक को मालिक को अधिकरण के समक्ष

प्रतिपरीक्षण के वास्ते बुलाने का कोई प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नक्शा मौका वैसे भी दुर्घटना के 27 घंटे बाद बना है। उन्होंने बीमा कंपनी का अपील के दौरान नक्शा मौका और फोटो को रिपोर्ट पर लेने के आवेदन को खारिज कर दिया कि उधमें कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है। उन्होंने एक दावेदार की ओर से मृतक के आयकर रिटर्न आकलन वर्ष 2012-13 को मोटर वाहन अधिनियम कल्याणकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिटार्ड पर लेते हुए अधिकरण द्वारा न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से तय मुआवजे को वास्तविक आय के अनुरूप मुआवजा राशि निर्धारित की।

राशिफल मंगलवार 29 अक्टूबर, 2024



कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2081, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन 3:24 तक, ऐन्द्रियन योग प्रातः 7:48 तक, तैतिल करण दिन 10:32 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरु-वृष, शुक्र-वृश्चिक, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से दिन 10:32 तक है। आज बुध वृश्चिक में रात्रि 10:39 पर प्रवेश करेगा। आज भौम प्रदीप व्रत, धन तेरस, धन त्रयोदशी निमित्त सायं यम दीपदान, धनव्रती जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:25 से 10:48 तक, लाभ-अमृत 10:48 से 1:34 तक, शुभ 2:57 से 4:20 तक।

राहुकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:39, सूर्यास्त 5:43

पंडित अनिल शर्मा

मेघ

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवाहित मामलों से राहत मिलेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। अनारथ्यक धन खर्च हो सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। अतिथियों का आमंत्रण रहेगा।

वृष

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-धार्मात्मिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रतासुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

मकर

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आस्थासना प्राप्त होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

मीन

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में मांगलिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।





राष्ट्रदूत

Rashtrdoot

Metro

Discover how to Relax and Recharge

Dongmo, Charoti, Saikala India's little-known Cookware

"Keep an eye out for big, fat pots," our hotel caretaker told us, helpfully. He was right. Outside a dhaba in Maranda, we saw a few pots covered with shallow bowls, that fitted his description.

क्या आर.बी.आई. के गवर्नर शक्तिकांत दास को एक और एक्सटेंशन मिलेगा

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा भारतीय मॉनिटरिंग पॉलिसी के लिए शक्तिकांत दास को "ए प्लस" रेटिंग दिए जाने से उनका दावा और मजबूत हुआ है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) के गवर्नर को दिसम्बर में तीन वर्षों का तीसरा कार्यकाल मिलेगा? गैर विवादास्पद गवर्नर शक्तिकांत दास के पास वित्तीय क्षेत्र को बेहतर तरीके से संभालने तथा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों के कारण शीर्ष पद पर बने रहने की सभी योग्यताएं हैं। दास के बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड को "ग्लोबल फाइनेंस" पत्रिका के, 2024 सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड ने लगातार दूसरे वर्ष मान्यता दी है। आर.बी.आई. गवर्नर को, जटिल आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की मॉनिटरिंग पॉलिसी (मौद्रिक नीति) कुशलतापूर्वक संभालने के लिए रिपोर्ट कार्ड में "ए प्लस" रेटिंग दी गई है। यह पुरस्कार वॉशिंगटन डी.सी. में, मुख्य निदेशकों के आधार पर लगभग 100 केन्द्रीय बैंक गवर्नरों के ग्लोबल असेसमेंट (वैश्विक मूल्यांकन) के आधार पर दिया गया है। पूर्व वित्त सचिव शक्तिकांत दास

- दिसम्बर 2018 में तत्कालीन आर.बी.आई. गवर्नर उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफा देने के बाद, पूर्व वित्त सचिव शक्तिकांत दास को तीन साल के लिए आर.बी.आई. गवर्नर बनाया गया था, सरकार के साथ उनका कार्यकाल एकदम निर्विवादित रहा, इसलिए उन्हें 2021 में 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया और इसी आधार पर एक और एक्सटेंशन मिलने की संभावना है।
- उनसे पहले जो दो गवर्नर थे, उर्जित पटेल और रघुराम राजन, उनके सरकार के साथ संबंध विवादों से भरे रहे थे।
- इसी बीच सरकार को तीन और महत्वपूर्ण नियुक्तियां करनी हैं। इनमें से एक है सी.ए.जी., जी.एस. मुर्मू, जिनका कार्यकाल नवम्बर में खत्म हो रहा है। उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी नियुक्ति की शर्तों में साफ लिखा है कि रिटायर होने के बाद वे ना एक्सटेंशन ले सकते हैं ना ही कोई नया पद।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.अनंता और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है पर उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। हालांकि, सेबी चीफ के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष, खासकर कांग्रेस आमने-सामने हैं।

को, उर्जित पटेल के सरकार के साथ तनाव के बीच दिए गए अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद, दिसम्बर 2018 में तीन साल का पहला कार्यकाल मिला था। फिर तीन साल पहले उनको एक्सटेंशन दिया गया था। केन्द्र सरकार के साथ उनके

मजबूत व स्थिर संबंधों के कारण उनको एक और एक्सटेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उनके पूर्ववर्ती, दो आर.बी.आई. गवर्नरों, उर्जित पटेल व रघुराम राजन के वित्त मंत्रालय के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दास के साथ-साथ शीघ्र ही तीन और प्रमुख नियुक्तियां करनी होंगी। आने वाले महीनों में, केन्द्रीय सरकार को जी.एस. मुर्मू का उत्तराधिकारी नियुक्त करना होगा, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अडानी और सेबी चीफ प्र.मंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं'

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। सोमवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अडानी और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि यदि उनपर या उनका सहयोग कर रहे किसी भी व्यक्ति पर हमला हुआ तो सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 4 मिनट 39 सेकंड का एक वीडियो विलप (टीजर) पोस्ट किया। राहुल ने कहा, संस्थागत पतन ने अब भाई-भतीजावाद के अधिक खतरनाक स्वरूप अडानी

- राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बुच अडानी के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम में हेर-फेर कर रही हैं और केन्द्र सरकार चुप है।

बचाओ सिंडिकेट को जन्म दिया है। मौजूदा सरकार अब केवल एकाधिकार को बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि सक्रिय रूप से देश की संसक्ति को कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि माधवी बुच कांड जितना सोचा गया था, उससे कहीं अधिक गहरा है। हो सकता है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही बुच अडानी के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम में हेरफेर कर रही हों।

प्रियंका ने वायनाड में मदर टैरेसा से मुलाकात का किस्सा सुनाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। वायनाड में अपने चुनाव प्रचार के पहले दिन प्रियंका गांधी ने मदर टैरेसा के साथ अपनी एक मुलाकात का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता राजीव गांधी हत्या के कुछ माह बाद मदर टैरेसा उनके घर आई थीं। मदर ने प्रियंका

- प्रियंका ने बताया कि उनके पिता की हत्या के कुछ माह बाद मदर टैरेसा उनके घर आई थीं और उन्हें दीन दुखियों के लिए काम करने की प्रेरणा दी थी।

से कहा था कि वे दीन दुखियों के लिए काम करें। इसके बाद प्रियंका ने मदर टैरेसा के संतान में जाकर काम किया। प्रियंका ने बताया, उस समय मैं 17 साल की थीं। मेरे पिता का निधन हुए 6-7 माह ही हुए थे। मुझे खुश था तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। फिर वो खुद मेरे कमरे में आई। अपना हाथ मेरे माथे

'एक प्रदेश में कितने सांसद हों, यह जनगणना के आकड़े निर्धारित करेंगे?

ऐसे मुद्दों पर निर्णय के लिये सरकार एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। कांग्रेस ने आज बहु-प्रतीक्षित जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर प्रश्नों की बौछार की। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार जनगणना से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय मीटिंग बुलाये।

कांग्रेस महासचिव तथा मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना आयुक्त के कार्यकाल में वृद्धि की अधिसूचना अभी-अभी जारी हुई है। इसका अर्थ यह निकलता है कि अति-विलम्बित जनगणना, जो 2021 में होनी थी, आखिरकार शीघ्र ही कराई जायेगी। लेकिन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर

- एक और मुद्दा कांग्रेस बार-बार उठा रही है, कि क्या जनगणना में जातिगत सर्वे ही होगा। इस प्रश्न पर भी कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में निर्णय कराना चाहती है।
- सैन्सस कमिश्नर का कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा के बाद, यह चर्चा जोरों पर है कि शीघ्र ही सरकार सैन्सस (जनगणना) करायेगी।

स्थिति अभी भी कतई स्पष्ट नहीं है।" रमेश ने पूछा है कि क्या "नई जनगणना" में अनुसूचित जातियों (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) की गणना, जो 1951 से बाद से प्रत्येक जनगणना में की जाती रही है, के अतिरिक्त देश की सभी जातियों की विस्तृत गणना शामिल होगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, इस प्रकार की जातिगत जनगणना कराना संघीय सरकार का अनन्य दायित्व है। उन्होंने पूछा, "क्या इस जनगणना का उपयोग लोकसभा में प्रत्येक राज्य

की संदस्य संख्या के निर्धारण के लिये किया जायेगा, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में जरूरी बताया गया है (यह अनुच्छेद कहता है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तथा इसके परिणामों का प्रकाशन ऐसे किसी भी पुनर्गठन का आधार होगा ? क्या इस कार्य से उन राज्यों को नुकसान होगा, जो परिवार-नियोजन के मामले में आगे रहे हैं?" उन्होंने कहा, "सर्वाधिक उपयुक्त यह रहेगा कि इन दो प्रमुख मुद्दों पर स्पष्ट स्थिति लाने के लिये एक सर्वदलीय मीटिंग जल्दी ही बुलाई जाये।"

महाराष्ट्र एवं झारखंड के चुनावों में बड़ी समानता है "परिवारवाद"

परिवारवाद को लेकर कांग्रेस की आलोचना करने वाली भाजपा भी इससे अछूती नहीं है

-श्रीनन्द झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। महाराष्ट्र एवं झारखंड के आसन्न विधानसभा चुनावों में एक बात समान है, वो है परिवारवाद। सभी राजनैतिक दलों ने इन चुनावों में अच्छी खासी संख्या में

- झारखंड में भाजपा ने अर्जुन मुंडा की पत्नी, चंपई सोरेन के बेटे, रघुवर दास की पुत्रवधु सहित कई नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं।

राजनैतिक उत्तराधिकारी खड़े किए हैं। खिलाफ अक्सर शोर मचाती रहती है, भाजपा, जो परिवारवादी राजनीति के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भतीजे के खिलाफ भतीजा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन बंद होने के एक दिन पहले सोमवार को, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा एन.सी.पी. प्रमुख अजित पवार ने अपना नामांकन पत्र बरामती से भर दिया तथा अब वे इस सीट पर अपने भतीजे तथा शरद पवार के पौत्र युगेन्द्र पवार (एन.सी.पी.-एस.पी. उम्मीदवार) का सामना करेंगे।

- शरद पवार के बरामती से अपने भतीजे अजित पवार के सामने उनके ही भतीजे युगेन्द्र पवार को मैदान में उतारा है।

विदित ही है कि अजित, जिन्होंने शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिये पार्टी तोड़ दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शिव सेना उम्मीदवार के रूप में थाने जिले की कोप्री-पंचपाखाड़ी सीट से अपना नामांकन भर दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रतिद्वंदी शरद पवार ने सोमवार को कहा कि महविकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) महाराष्ट्र में जन-

'नड्डा और मैं भाई हैं, क्योंकि, एक ही "आइलियोलॉजिकल परिवार" के सदस्य हैं'

आर.एस.एस. के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने मथुरा में आयोजित संघ के कार्यकारी मण्डल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने हिन्दू एकता के महत्व पर जोर देते हुए, भाजपा के साथ किसी प्रकार मतभेद न होने की फिर से पुष्टि की। वे मथुरा के परखन गाँव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में "बेटों तो कटेंगे" का समर्थन किया, उन्होंने जोर देते हुए, इस बारे में एकता का आन्धान बताया।

होसबाले ने भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ अपने सम्बन्ध का जिक्र करते हुए, उन्हें समान वैचारिक परिवार का अपना भाई बताया। भाजपा अध्यक्ष के साथ किसी प्रकार की दरार का खंडन करते हुए, होसबाले ने कहा कि चुनाव तथा अन्य

- होसबाले ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा व आर.एस.एस. के बीच मतभेद की बात को कपोल कल्पित है, उन्होंने यह भी कहा कि नड्डा की लोकसभा चुनाव के पहले दी गई बहुचर्चित टिप्पणी के बाद, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद वे नड्डा के घर गये थे तथा भोजन किया था।
- होसबाले ने यह भी कहा कि आर.एस.एस. योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन करती है कि "हिन्दू बंटेंगे, तो कटेंगे।"

मामलों में संघ से पार्टी की स्वतन्त्रता को बचाने में आम चुनावों से पहले की भाजपा अध्यक्ष की टिप्पणी के बाद तो उन्होंने नड्डा के निवास पर भोजन किया था। योगी आदित्यनाथ के "बेटों तो कटेंगे" नारे के बारे में पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, होसबाले ने हिन्दू एकता के रेखांकित संदेश तथा जाति, रंग या मूलों पर आधारित विभाजन के खतरे विस्तार

महाराष्ट्र चुनाव की खींचतान में कांग्रेस ने भाजपा व मोदी सरकार पर नया आरोप लगाया

कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार महाराष्ट्र के हितों की बलि दे रही है और प्र.मंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में लगाने वाले कई उद्योग व सैंटर गुजरात भेज दिए हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि टाटा एयरबस सी-295 के जिस निर्माण संयंत्र का वडोदरा में उद्घाटन हुआ है वो पहले नागपुर में लगाने वाला था और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इशारे पर केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र की महायुक्ति सरकार ने महाराष्ट्र के हितों को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री व उनके सहयोगियों को इस घोखे का माकूल जवाब देने के

- कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जिस टाटा एयरबस सी-295 फैसिलिटी का उद्घाटन किया है वह नागपुर में लगाने वाली थी।
- कांग्रेस ने कहा, इससे पहले वेदांत फॉक्सकॉन चिप फैक्टरी, इंटरनेशनल फायनैशियल सर्विसेज सेंटर, डायमंड ट्रेड सेंटर, ड्रग पार्क भी महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेज दिए गए।
- महाराष्ट्र के महत्व को देखते हुए विधानसभा चुनावों में भारी तनाव है, यहाँ हरेक दल आरोपों की राजनीति कर रहा है।

जिसमें सी-295 सैन्य विमान बनाए जाएंगे। इस उद्घाटन के बाद कांग्रेस ने यह आरोप लगाया। टाटा एयरबस फैसिलिटी प्राइवेट सेंटर का पहला संयंत्र है, जहाँ सैन्य विमान एसेम्बल किए जाएंगे। रमेश ने कहा, आज नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने वडोदरा में टाटा-एयरबस सी-295

एयरक्राफ्ट फैसिलिटी जारी कर उद्घाटन किया। यह वही प्रोजेक्ट है जो नागपुर में लगाने वाला था, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले उसे गुजरात भेज दिया गया। रमेश ने कहा, यह एकमात्र घटना नहीं है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के निर्देश पर केन्द्र

सरकार और महायुक्ति सरकार ने साजिश रच के महाराष्ट्र के हितों की तिलांजलि दे दी है। पूर्व की घटनाओं को उदाहरण देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा इन्टरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर भी गुजरात में लगाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मुम्बई में यह सेंटर लगाने के प्रयास शुरू किये थे। बांद्रा कुर्ला परिसर में आई.एफ.एस.सी. के लिए अलग से जमीन रख दी गई थी, पर उस प्रयास को भारी हानि पहुंचाई गई। इससे मुम्बई को दो लाख नौकरियों का नुकसान हुआ। रमेश ने कहा कि भारत के डायमंड उद्योग को विकसित करने के लिए मुम्बई और सूरत ने कई दशकों से साथ मिलकर काम किया है। सूरत में

SWAMI KESHVANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MANAGEMENT & GRAMOTHAN

(An Autonomous Institute, Affiliated to RTU, Kota)
Recognized by UGC under section 2(f) of the UGC act 1956, Approved by AICTE, New Delhi

Creating Winners for Life

★★★★

A++

GRADED BY NAAC

★★★★

RANKED NO. 1

BY RTU KOTA

★★★★

NBA

Accredited

★★★★

AN AUTONOMOUS INSTITUTE

The Only Affiliated Technical Institute in Rajasthan With 3.87 CGPA on 4 Point Scale

First Rank in Engineering Program for 7th consecutive years by RTU, Kota (2017-18 to 2023-24)

Engineering Programmes Accredited by National Board of Accreditation and IE (INDIA)

The only Affiliated Self Financed Technical Institute of RTU, Kota in Rajasthan with an Autonomous Status from UGC

आप सभी को **दीपावली** की हार्दिक शुभकामनाएं

Jaipal Meel, Director

Admissions Helpline : B.Tech. : 8505003008
M.Tech., Ph.D : 9799884938 | MBA : 9680080686, 8302020007
✉ admissions@skit.ac.in

Ramnagar, Jagatpura, Jaipur-302017 (Rajasthan) | Website : www.skit.ac.in

बांग्लादेशियों के फर्जी कागजात बनाने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार

भांकरोटा पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड बरामद किए

जयपुर (कांस)। भांकरोटा पुलिस ने एक बांग्लादेशी और फर्जी कागजात बनाने वाले उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। इस प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।



भांकरोटा पुलिस ने एक बांग्लादेशी और फर्जी कागजात बनाने वाले सहयोगी को गिरफ्तार किया है।

डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के बताए अनुसार बांग्लादेशी नोजु फकीर (45) जयसिंहपुरा भांकरोटा निवासी और उसका सहयोगी फिरोज कुरेशी (40) सीकर हाउस चांदपोल बाजार निवासी को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध बांग्लादेशी नोजु फकीर, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है, उसका फर्जी आधार कार्ड बनाकर उम्र 18 वर्ष दिखाई गई है।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी नोजु फकीर के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि फर्जी आधार कार्ड बनाने में उसका दूसरा सहयोगी फिरोज कुरेशी और उसका भाई मोहम्मद आमिर उर्फ राजा उसकी मदद करते थे, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि पूर्व में गिरफ्तार बांग्लादेशी सोहाग खान चेत्रई में दर्ज एक प्रकरण में फरार चल रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी

■ पुलिस ने पूर्व में 12 बांग्लादेशी और 6 सहयोगियों को दबोचा था

पुलिस ने पूर्व में 20 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 12 बांग्लादेशी और उनका सहयोग करने के आरोप में 6 जनों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस पूछताछ के बाद आरोपियों के पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट बरामद किए गए थे। उसके अलावा आरोपियों के पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सहित अन्य कागजात बरामद किए थे। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज और जगह उपलब्ध करवाने वाले सहयोगी सोहाग खान और शबनूर को गिरफ्तार किया था। उसके अलावा भारतीय सहयोगी जयसिंहपुरा निवासी उस्मान खान को भी गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि उस्मान ने उन्हें यहां बुलाकर किराए पर जगह उपलब्ध कराई थी और उसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे।

मातृभाषा में प्री-प्राइमरी शिक्षा जरूरी : कुणाल



स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षक संघ एवं कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

जयपुर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के शिक्षा संकुल परिसर में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षक संघ एवं कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा की दिशा और दशा पर व्यापक चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृष्ण कुणाल, शासन सचिव स्कूल शिक्षा ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा में प्री-प्राइमरी शिक्षा को आवश्यक बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा में बच्चों का हित सर्वोपरि है। कुणाल ने कहा कि तीन से आठ साल के बच्चों के बौद्धिक, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए उनकी मातृभाषा में प्री-प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इसके लिए एक आसान शब्दकोश तैयार किया जा रहा है जिससे बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ने में सहायता मिलेगी। उन्होंने ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए प्री-प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाने और सरकारी

■ शाला दर्पण पोर्टल को सरल बनाने और सरकारी स्कूलों में उपस्थिति मानिट्रिंग में सुधार होगा

विद्यालयों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। शासन सचिव ने शाला दर्पण पोर्टल को सरल बनाने की बात कही जिससे राजकीय विद्यालयों में उपस्थिति मानिट्रिंग और मूल्यांकन में सुधार होगा। बैठक में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग, नियमित दक्षता परीक्षा, पारदर्शी स्थानान्तरण नीति और विद्यालयों की सक्सेस रेटिंग पर विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा सचिव ने भविष्य में इन सुधारों को लागू करने का आश्वासन दिया। बैठक में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आशीष मोदी, प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक सीताराम जाट के साथ शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे।

‘राजस्थान में गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का अध्ययन करेंगे’

मंत्री जोराराम कुमावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘गौ-तस्करों और गाय विरोधी लोगों के विरुद्ध राज्य सरकार कठोर कार्यवाही करेगी’

जयपुर (कांस)। पशुपालन एवं गौ-पालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि, राजस्थान सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का अध्ययन करेगी, जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिल चुका है। हमारा विभाग महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में है और वहां से नियम मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि, गौ-तस्करों और गाय विरोधी लोगों के विरुद्ध सरकार निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही करेगी, इसमें किसी तरह की कोई हिलाना नहीं बरती जाएगी। जो भी गौशालाएं फर्जी तरीके से फायदा उठा रही हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा।



गौ-पालन मंत्री जोराराम कुमावत

कृष्ण प्रदर्शित होती है बल्कि समाज में इनके प्रति उचित दृष्टिकोण भी निर्मित होता है। कुमावत ने कहा कि गौवंश के लिए आवारा शब्द को बदलने के विषय पर विधान सभा में भी चर्चा हुई थी और यह घोषणा की गई थी कि जल्द ही इस शब्द को बदल दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर कार्यवाही करते हुए इस आशय के आदेश निकाल दिए गए हैं कि किसी भी सरकारी कार्यालय में गौवंश के लिए आवारा शब्द नहीं लिखें। अब गायों को आवारा कहने की बजाय निराश्रित या बेसहारा कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि आदेश की कॉपी सभी जगह भिजवा दी गई है और यह निर्देश दिया गया है कि नीचे के स्तर तक इसकी पालना न केवल लिखित में बल्कि बोलचाल की भाषा में भी की जाए। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील कि वे भी अपने बोलचाल की भाषा में ऐसे गौवंश के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि गायों का संरक्षण और संवर्द्धन हम सबका दायित्व है।

■ पशुपालन एवं गौ-पालन मंत्री ने कहा कि, “गायों को आवारा कहना हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत है। इसलिए स्वतंत्र रूप से विचार करने वाली गायों को प्रदेशवासि भी निराश्रित या बेसहारा कहें।”

■ राज्य में संचालित गौशालाओं का सरकार 9 महीने का और नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान देती है : कुमावत

उन्होंने बताया कि सरकार गौवंश के लिए बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है। सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। राज्य में संचालित गौशालाओं का सरकार 9 महीने का और नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान देती है। इसके अलावा गौशाला में बीमार और अपंग पशुओं के लिए भी 12 महीने का अनुदान दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा गौशाला खोलने की दिशा में भी सरकार प्रयत्नशील है जिससे गायों को निराश्रित नहीं रहना पड़े। मंत्री जोराराम ने कहा कि हर पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला, जिला स्तर पर नंदीशाला योजना ऐसी ही योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही हैं। इस तरह साल में लगभग 1150 करोड़ रुपये राज्य सरकार गौशालाओं के विकास और गायों के अनुदान के लिए उपलब्ध करा रही है।

39 साल पहले दुष्कर्म के प्रयास पर सजा के आदेश में दखल से इनकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 39 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त को 33 साल पहले निचली अदालत से मिली पांच साल की सजा के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त को कहा है कि वह बाकी की सजा भुगतने के लिए संरेंद्र करे। अदालत ने कहा कि घटना को लेकर पीड़िता के बयानों में कोई भी बदलाव नहीं आया है, चाहे बचाव पक्ष ने लंबी जिरह की हो। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की कलपीट ने यह आदेश अभियुक्त की 32 साल पुरानी अपराधिक अपील को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि साल 1985 में पांच साल की पीड़िता के साथ अपराध घटित हुआ था और उसने 11 साल की उम्र के समय बयान दिए थे, लेकिन उसकी साक्ष्य में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में अपीलार्थी मामले को झूठा बताने की लेकर पेश तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है। अदालत ने कहा कि पीड़िता के बयान को एफएमएल रिपोर्ट से जोड़कर देखने के जोर देते हुए कहा कि केवल पीड़िता के दुरुस्तर का प्रयास करने के बारे में कुछ नहीं बताने पर ही घटना नहीं होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

सिटी पैलेस में 25 श्रेणियों में दिए गए प्रतिष्ठित सवाई जयपुर अवॉर्ड्स

जयपुर (कांस)। हिज हाइनेस ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह, एमबीसी ऑफ जयपुर की जयंती पर सोमवार शाम को सवाई जयपुर अवॉर्ड्स 2024 का आयोजन सिटी पैलेस के प्रीतम चौक में किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज परिवार की सदस्या दीपा कुमारी, एमएसएमएस द्वितीय संग्रहालय के चेयरमैन हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, प्रिंसेस गौर्वी कुमारी और धर्म गुरूओं के मंच पर आने के साथ ही कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। महाराजा सवाई मान सिंह (एमएसएमएस) द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार मानवता की सेवा, हेरिटेज संरक्षण, चिकित्सा विज्ञान, परम्परागत शिल्प के क्षेत्र आदि सहित 25 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों के तहत 31 हजार रुपये तक, शॉल, एक गंगा जली, प्रशस्ति पत्र और श्रीफल प्रदान किया गया। इस वर्ष पहली बार पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, महानिदेशक, श्रीमती मुष्तासिन्हा द्वारा द कल्चरल कॉन्टिन्म: प्रॉम वीइंग टू बिलॉनिंग विषय पर कीनोट एड्रेस भी दिया गया। उन्हें संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए राजा ककिल देव अवॉर्ड मुष्तासिन्हा; मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजा पञ्चन देव अवॉर्ड (डॉ. एम.एल. स्वर्णकार); जयपुर के पारंपरिक शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजा भगवंत दास अवॉर्ड गुलख सुलताना को दिया। इसी प्रकार बहादुरी के लिए राजा



हिज हाइनेस ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को सिटी पैलेस जयपुर में सम्मान समारोह आयोजित हुआ।

दान और सुबेदार मेजर गुरदयाल सिंह ने बटालियन द्वारा एक ऑपरेशन के बाद लेटी गली पर कब्जे की एक पेंटिंग भेंट की। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए हुए पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें उत्कृष्ट सामाजिक सेवाओं के लिए राजा दूल्हा राय अवॉर्ड मुस्कान फाउंडेशन को दिया गया। इसी प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए राजा ककिल देव अवॉर्ड मुष्तासिन्हा; मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजा पञ्चन देव अवॉर्ड (डॉ. एम.एल. स्वर्णकार); जयपुर के पारंपरिक शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजा भगवंत दास अवॉर्ड गुलख सुलताना को दिया। इसी प्रकार बहादुरी के लिए राजा

मान सिंह प्रथम अवॉर्ड राइफलमैन मोहित राठौड़ (भरणेपरत), सशस्त्र बलों में विशिष्ट सेवा के लिए मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम अवॉर्ड से मेजर जनरल अनुज माधुर, (वीएसएम) को नवाजा गया। पारिस्थितिकी संतुलन एवं पर्यावरण में सुधार के लिए मिर्जा राजा राम सिंह प्रथम अवॉर्ड से डॉ. राजेंद्र सिंह; ट्रेवल एवं टूरिज्म विकास में उल्लेखनीय कार्य के लिए महाराजा विशन सिंह अवॉर्ड से बैनयन दुर्ग; एस्ट्रोनामी एवं संबंधित विज्ञान के क्षेत्र में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय अवॉर्ड से संदीप भट्टाचार्य; पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह अवॉर्ड से श्रीकांत

त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार समाज सेवा और परोपकार के लिए महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम अवॉर्ड डी. बी. गुप्ता, साहित्य-शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवॉर्ड अंकुर मिश्रा; आर्ट पेंटिंग एवं स्केल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए महाराजा सवाई जगत सिंह अवॉर्ड तरुण राज पंचाल; फोटोग्राफी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए एच.एच. महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय अवॉर्ड टीकम चंद; थियेटर, फिल्म एवं टेलीविजन क्षेत्र सुबेया नल्लामुथु में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। इसके अलावा भी कई पुरस्कार दिए गए।

28 आर.ए.एस. अधिकारियों का तबादला

जयपुर (कांस)। राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर 28 आर.ए.एस. अधिकारियों का तबादला किया है। आदेश के मुताबिक गौरव बजाड़ को चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव, बिंदू करणुकाकर को कार्मिक (क-3 शिफायत) में संयुक्त शासन सचिव के पद पर लगाया है। प्रभा गौतम को चित्तौड़गढ़ में अतिरिक्त कलेक्टर, हरीराम मीणा को धौलपुर अतिरिक्त कलेक्टर, डॉ. सुनीता पंजक को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में रजिस्ट्रार, नरेन्द्र कुमार शर्मा को राजस्थान संस्कृत विवि. में रजिस्ट्रार, धारा सिंह मीणा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कम अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा) सवाई माधोपुर के पद पर लगाया है। इसी प्रकार सुनील पुनिया को खाद्य उत्पादक जयपुर, नरेश सिंह तंवर को पंचायतीराज विभाग जयपुर में अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव, राजीव द्विवेदी को उपमहानिरीक्षक, पंजीवन व मुद्रांक उदयपुर वृत्त, मोहनलाल खटनावल्याणा को ब्यबच में अतिरिक्त कलेक्टर, संतोष कुमार गोयल को चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर में विशेषाधिकारी, संजीव कुमार शर्मा को जयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त तथा अजय को फ्लौटी अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर लगाया है।

‘दिवाली मंगल मिलन’ मेले में उमड़ी भीड़

जयपुर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवासी राजस्थानियों को सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था राजस्थान रत्नाकर द्वारा नई दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, टीवी टावर और दिल्ली हॉट के पास स्थित मैदान में लगाये गये दिल्ली के सबसे बड़े दिवाली मंगल मिलन मेला के अंतिम दिन राजस्थान दिवस मनाया गया। इसमें उमड़ी भारी भीड़ के साथ रविवार देर रात मेला सम्पन्न हुआ। संस्था के सांस्कृतिक प्रभारी पुष्पेन्द्र गोयल के मार्ग दर्शन में जाने माने कलाकार हरवंश और साथी कलाकारों ने मंच पर राजस्थान के लोकगीतों पर घुमर, गौरवंध, भवाई, चकरी, कठपुतली और कालबेलियाँ आदि नृत्य तथा अन्य सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। साथ ही राजस्थान के ऐतिहासिक प्रसंगों पर नृत्य नाटकाएँ भी प्रस्तुत की जिसे देख कर दर्शक भाव विभोर हो गये। इसके साथ ही महिलाओं, युवाओं और बच्चों के लिए कई अन्य आकर्षक और ज्ञानवर्धक विविध स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया। मेला स्थले को सुंदर रंगीली और आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया था। राजस्थान रत्नाकर के चेयरमैन राजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि इस दो दिवसीय वार्षिक दिवाली मिलन मेला में संस्था के स्वर्णिम 50 वर्षों के गोल्डन जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में इसमें विशेष आकर्षणों को शामिल किया गया। मेले में इस बार अयोद्धा के राम लला, वृन्दावन के बाँके बिहारी जी तथा सालासर हनुमान, रानी सती दादी माँ और कलंगी अवतार की सुंदर झाकियाँ ने भी दर्शकों का मन मोहा।

मजदूरी के पैसे नहीं मिले तो पानी की टंकी पर चढ़ा युवक

जयपुर। जवाहर नगर थाना इलाके में एक मजदूर को अपनी मजदूरी नहीं मिली तो परेशान होकर वो पानी की टंकी पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टंकी पर चढ़ मजदूर से समझाईश की और मौके पर पैसे नहीं दे रहे ठेकेदार को बुलाया। जिसके बाद दोनों के बीच समझाईश कर मजदूर को नीचे उतारा गया जिसके बाद मामला शांत हुआ। थानाधिकारी शेष नारायण के बताए अनुसार सोमवार दोपहर 4 बजे जवाहर नगर सेक्टर-4 पर एक मजदूर के पानी की टंकी पर चढ़े होने की

■ सूचना पर मौके पर पहुंची जवाहर नगर पुलिस ने टंकी पर चढ़ मजदूर से समझाईश की और मौके पर ठेकेदार को बुलाकर दोनों के बीच सुलह करवाकर मजदूर को नीचे उतारा।

सूचना मिली। जिसके पानी की टंकी के पास स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलाया। मजदूर के नीचे कूदने की आशंका को देखते हुए सिविल डिफेंस टीम ने मौके पर जाल बांधकर युवक से बातचीत शुरू की। बताया जा रहा है कि टीला नंबर-7 निवासी मुकेश बेरवा मकान

बनाने का काम करता है। ठेकेदार ने उससे मकान बनवाया और मजदूरी के 5 लाख 78 हजार रुपए नहीं दिए। कई दिनों तक झंसा देने के बाद ठेकेदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मजदूर ने उसने पानी टंकी पर चढ़ने का फैसला कर लिया। पुलिस ने ठेकेदार को मौके पर बुलाया व सुलह करवाकर मामला शांत करवाया।

पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका भगौड़ा घोषित

जयपुर। उदयपुर के सुखेर व बेकारिया थाने में दर्ज बरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक गिरोह का मास्टर माइंड सुरेश ढाका को कोर्ट ने 37 एक्ट का वारंट जारी करने के बाद भगौड़ा घोषित कर दिया। कोर्ट ने पूर्व फिरोज के मास्टर माइंड सुरेश ढाका को संपत्ति कुर्क की थी। लेकिन उसके बाद भी आरोपी का कुछ पता नहीं चला तो कोर्ट ने 37 एक्ट की कार्यवाही करने के पश्चात उसे भगौड़ा घोषित कर दिया। सुरेश ढाका के खिलाफ अब कोर्ट के आदेश से इस्तहार जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि एसओजी की ओर से विशेष लोक अभियोजक

100 छात्र-छात्राओं ने देखी विधानसभा

जयपुर (कांस)। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाानी ने कहा है कि आज का युवा हो देश का भविष्य है। देवनाानी सोमवार को यहां विधान सभा में खैथल तिजारा के छात्र-छात्राओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम है। हमें राष्ट्र की सेवा के लिए अपने दायित्वों को समझकर और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर दुनिया में भारत का नाम रोशन करना है। इस अवसर पर मौजूद विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाकर जूली ने विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाानी से छात्र-छात्राओं और विप्र फाउण्डेशन के पदाधिकारियों का परिचय कराया।

भंवर सिंह चौहान ने कोर्ट में कहा कि पेपर लीक गिरोह का सरगना सुरेश ढाका के खिलाफ पूर्व में 37 एक्ट का वारंट जारी किया था। जिसके बाद पुलिस ने उसकी काफी तलाश की। लेकिन वो नहीं मिला। ऐसे में उसके भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। उसमें उसे भगौड़ा घोषित कर देना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद सुरेश ढाका को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने बरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक प्रकरण में फरार चल रहे सुरेश विवेरनोई, प्रदीप खींचड़, जोगेंद्र सिंह, नेतराम कबबो की भगौड़ा घोषित किया है।

सार-समाचार

महेश नगर में दीपोत्सव का शुभारंभ



जयपुर। महेश नगर व्यापार मण्डल द्वारा दीपोत्सव 2024 के अवसर पर सजावट का उद्घाटन मालवीय नगर विधायक कालीचरण सरफ, जयपुर नगर निगम प्रेटर महाश्वर डॉ. सौम्या गुर्जर, जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल ने किया। कार्यक्रमी अध्यक्ष राजकुमार बंसल ने बताया कि इस अवसर पर स्थानीय पार्षद रूषा टाटीवाल, तापा बेनीवाल, जयपुर व्यापार महासंघ के मंत्री सुरेश सैनी तथा महेश नगर व्यापार मण्डल के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य भी उपस्थित किया है।

आरजेएस परीक्षा में सना की 176वीं रैंक



जयपुर। आरजेएस की परीक्षा में 176वीं रैंक सना चौहान ने हासिल कर अपने समाज का अपने परिवार का नाम रोशन किया। सना चौहान के पिता शौकत चौहान की 5 साल पहले ही मृत्यु हो गयी थी। सना ने घर की परिस्थितियों के विपरीत जाकर ये मुकाम हासिल किया है। सना चौहान समाज की लड़कियों के लिए एक आइडियल बनीं। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के कार्यलय मंत्री उस्मान खौं चौहान ने बुकें भेंट कर हौसला अफजाई की। तेली पिंजारा (मंसुरी) समाज के लिए फख की बात है।

राष्ट्र एकता व सत्यनिष्ठा की शपथ ली

जयपुर। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के अधिकारियों व कार्मिकों ने राष्ट्रीय एकता दिवस व सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सत्यनिष्ठा की शपथ ली। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने अधिकारियों व कार्मिकों को एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार मुक्त व सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई। इस साल की थीम सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि है। एमडी रणवीर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय एकता व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी देशवासियों को योगदान देने की आवश्यकता है वहीं जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन का अंग बनना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर सीएनपी विवेक श्रीवास्तव ने इस अवसर पर जारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश, सीएफओ दीपांशु पारीक ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, डीजीएम कोटा आनन्द आर्य ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और डीजीएम विवेक रंजन ने सीवीसी के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर डीएमआईटी गगनदीप राजौरिया, रविशंकर अग्रवाल, पीआर प्रभारी राजेन्द्र शर्मा उपस्थित रहे। गौरतलब है कि संसद देश में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है।

डेटा अपडेट के बाद हॉंगे पेंशन आवेदन

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक बचनेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य के 22 हजार से अधिक विशेष योग्यजनों के केंद्र सरकार के स्वावलंबन पोर्टल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र-यूडीआईडी कार्ड को दिव्यांगजन के जनआधार पोर्टल पर अपडेट करवाये जाने के बाद दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वावलंबन पोर्टल से जनआधार पोर्टल पर दिव्यांगजनों के डेटा अपडेट की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से आरम्भ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के जिन विशेष योग्यजनों ने केंद्र सरकार के स्वावलंबन पोर्टल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करवाया है। उन सभी विशेष योग्यजन व्यक्तियों को इस यूडीआईडी कार्ड को जनआधार में अपडेट करवाना है ताकि वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के लिए आवेदन के पात्र हो जायें। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 मार्च 2024 से दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार के स्वावलंबन पोर्टल से जारी किये जा रहे हैं।



World Stroke Day

Statistics have shown that 1 in 6 deaths, due to cardiovascular issues, are related to stroke. And stroke is a leading cause of serious, long-term disability. Since stroke is a preventable and treatable disease, this does not have to be grim news, but should act as an encouragement for people to pay more attention to their health. And that's what World Stroke Day is all about. Established in 2006 by the World Stroke Organization, World Stroke Day is an annual event that emphasizes testing, education, and initiatives to improve and mitigate the damaging impact, that stroke can have, on people's lives, worldwide.

#SLEEP ROUTINE

Discover how to Relax and Recharge

By adopting relaxing techniques, creating a conducive sleep environment, and choosing ideal sleep positions, you can rest better and wake up feeling refreshed and pain-free.



Somedays, we wake up cocooned in a soft fuzzy blanket, and other days, it feels like the devil took over us while sleeping! With hands and feet spread wide apart, one can only hope that you're sharing the bed with no one other than a bunch of pillows to accompany you. But on days when you can, the position that you sleep in, provide deeper insight into your body's cortisol level. Are there particular poses, that you sleep in, when your body is stressed beyond relief? Let's find out. Dr. Satish Reddy, Consultant Pulmonologist, CARE Hospitals, Hitch City said that when the body is 'stuck' in sleep mode, it often means that the muscles are not properly relaxed or aligned, potentially leading to discomfort or disturbed sleep.

According to him, the most common sleep positions that may indicate that the body is stuck in this mode include:
Fetal Position: Sleeping curled up on one side with knees drawn towards the chest can restrict breathing and cause tension in the neck and back.
Prone Position: Lying face

What could be the Potential Causes behind this?

Dr. Reddy shared that prolonged stress or lack of physical activity can lead to muscle tension, making it difficult for the body to relax during sleep. "A mattress that is too firm or too soft, inadequate pillows, or an uncomfortable room temperature can contribute to poor sleep posture. Conditions such as arthritis, fibromyalgia, or chronic pain can cause discomfort in certain sleep positions, preventing relaxation," he shared. Anxiety stress, or depression can cause muscle tension and restlessness, making it difficult to find a comfortable sleep position. Many people are unaware of their natural sleep positions and may not recognize how certain positions could be contributing to discomfort or poor sleep quality.

How can you Relax your Body for Better Sleep?

- This involves tensing and then slowly releasing different muscle groups in the body starting from the toes and working upwards, to promote overall relaxation.
- Practicing mindfulness or deep breathing exercises before bed can help calm the mind and relax the body, reducing muscle tension and preparing for sleep.
- Gentle stretching or yoga poses, especially those that focus on the back, neck, and shoulders, can help release muscle tension and improve flexibility.
- Ensure that the mattress and pillows provide proper support and maintain a comfortable room temperature to promote relaxation.
- Avoid caffeine, nicotine, and alcohol close to bedtime, as these can disrupt sleep patterns and make it harder for the body to relax.



Dongmo, Charoti, Saikala

India's little-known Cookware

Dham is cooked in massive rotund pots called *charoti* or *baltoi*. These are made of brass and have a short, narrow neck and thick walls. "Used to cook for large crowds, on an open fire, built in a deep trench, charoti is designed to withstand high heat and allow the curry to cook slowly so that its flavours can bloom," explained culinary writer, Divya Sud Qureshi, a champion of Himachal's culinary culture. "The design also ensures that the food remains hot for a long period of time."



Priyadarshini Chatterjee
Food and Culture
writer, based in
Kolkata

Outside a *dhaba* in Maranda, we saw a few pots covered with shallow bowls, that fitted his description and inside, we received a meal that matched my expectation.

Dham is cooked in massive rotund pots called *charoti* or *baltoi*. These are made of brass and have a short, narrow neck and thick walls. "Used to cook for large crowds, on an open fire, built in a deep trench, *charoti* is designed to withstand high heat and allow the curry to cook slowly so that its flavours can bloom," explained culinary writer, Divya Sud Qureshi, a champion of Himachal's culinary culture. "The design also ensures that the food remains hot for a long period of time."

Like *charoti*, there are numerous kinds of cookware in India that are specific to regions or communities. Either made of uncommon material or unusual in shape and size, these traditional utensils often offer an insight, not only into a community's food, but also its culture, history and lifestyle.

Take, for instance, the tree bark casserole made by the Shompen tribe of the Great Nicobar Island. "The Shompens have complete knowledge about the plants in the forest and their characteristics, as it is indicated by their clever use of bark casserole," writes Kavita Arora in her 2019 book *Indigenous Forest Management in the Andaman and Nicobar Islands, India*. "To build the casserole, the Shompens use the fire-resistant bark of local trees, such as *Areca catechu* and *Calophyllum inophyllum*.

Up north, in mountainous Ladakh, it is not trees but stones that are used to make cookware. Nilza Wangmo, who runs Alchi



Himachali Dham Thali.

#FOOD



Fayaz Kabir/Reuters.

Kitchen, a restaurant in a town near Leh, identifies a range of utensils found in a traditional Ladakhi home, each one with a specific purpose. The first one that she lists is *doslang*, a stone slab, used as a griddle to make the local sourdough bread, *khambir*. Next comes *dolok*, a heavy black stone pot, used to prepare stews, soups, *Yarkandi pulao* (a dish of rice, meat and vegetables) and *paba* (a cross between a bread and pudding, made with a flour that consists of grains and legumes, sometimes flavoured with caraway seeds). To stir and shape the *paba* into thick triangular bricks, a special spatula, made of wood from apricot or walnut trees, is used. Ladakhis call it *skya*. For barley soup, they use a broom-like ladle called *siikyay*.

The *dolok*, as Wangmo explains, is made by generational craftsmen in Nubra valley. Their process begins with scouring the mountains for the right stones, which are hauled down the mountains with ropes, and then, painstakingly carved into deep-bottomed pans over days and weeks. To a traditional Ladakhi, buying a good *dolok* is almost as important as getting a good *dongmo*. A *dongmo* is a hollow wooden

The *Rowther Muslim* community of Kerala and Tamil Nadu once counted on its *manda*, a hollow clay pot with tiny feet, to prep in the kitchen. A cook would throw shallots, green chillies and cooked rice into a *manda* and crush with a spatula, before tipping the contents into whisked eggs to make fluffy omelettes. "The surface of the pot helped crush the ingredients..."

Mudalar families of Ramassery use *chiratta thabi*, spoons and ladles made of coconut shells. Traditionally, around Kerala, fish curry is slow-cooked in *meen-chatti* or *manchatti*, a flat-bottomed terracotta pot with a wide mouth. "The uniqueness of the pot is that it allows the cook to hold it by the rim and give a quick swirl," writes Vijayan Kannampilly in *The Essential Kerala Cookbook*. "This ensures that the curry does not stick to the bottom and, at the same time, obviates the need to stir with a ladle, which can disintegrate a soft fish." *Meen-chatti* retains heat inside for a long time, thus allowing for slow-cooking and remains just warm enough on the outside to permit the gentle swirling," Kannampilly writes. "Before putting a *meen-chatti* to use, it is necessary to boil water in it and drain it out at least thrice. At the third time, a teaspoon of refined oil can be added to the water. This helps to remove all traces of clay and seals pores of the chatti." Mathew adds that a fish curry is often allowed to mature overnight in the *manchatti*, to give it depth and a flavourful accent, before being eaten the next day.

Another utensil unique to



Dongmo. Credit: John Hill/Wikimedia Commons

Kerala is *puttu kutti* or *puttu kudam*, which is used to make *puttu* (steamed crumbly logs of ground rice and coconut, mildly seasoned and typically served with a spicy meat curry). "A *puttu kutti* comprises a cylindrical tube with a ridged cap for its base, that has holes in it," said Mathew. "This tube is packed with rice flour and coconut flakes, and fitted into a round vessel filled with water. When heated, the steam runs through the holes into the tube, cooking the rice-and-coconut mixture. Traditionally, the tube would be made of hollow bamboo or bell metal, but nowadays, it's available in steel and aluminium too."

The *Rowther Muslim* community of Kerala and Tamil Nadu once counted on its *manda*, a hollow clay pot with tiny feet, to prep in the kitchen. A cook would throw shallots, green chillies and cooked rice into a *manda* and crush with a spatula, before tipping the contents into whisked eggs to make fluffy omelettes. "The surface of the pot helped crush the ingredients..."

Further up on the western coast, a cherished possession in every *Maharashtrian* kitchen is a *puran yantra*. A hand-operated masher, the *yantra* is typically used to make the stuffing for *puran poli*, the *Maharashtrian* flatbread, but is equally convenient for beating strained yoghurt, or *malai chakka*, to make *shrikhand*. As Saeed



Charoti from Himachal.

Koranne Khandekar notes in *Pangat*, a *puran yantra* is preferable to a mixer/blender because, unlike them, it doesn't generate the high heat that affects the flavours and textures of a dish.

Another kitchen appliance that scores high on convenience is the *Coorgi saikala* or *chaikala*. "A *Coorgi* kitchen can be identified by its *saikala*," said Anjali Ganapathy, who serves bespoke *Kodava* dining experiences at Pig Out in Bengaluru. *Saikala* is a traditional brass steamer with a rounded bottom, quite like a *handi*, and an upper segment that resembles a Dutch oven, with a perforated base. "We use it to steam accompaniments like *kadambutti* (steam rice balls), *paaputi* (broken rice and coconut steamed puttu), *thaiyaputti*, snacks like *konalaputti*, and different puddings and cakes," she said. Ganapathy inherited her *saikala* from her grandmother: "It is inscribed with her initials and was a part of her wedding trousseau."

In the Kumaon region of Uttarakhand, wedding trousseaus traditionally included heavy-bottomed brass pots, fitted with circular handles that came inscribed with the owner's name. Called *kasera*, the pots are still around and can be seen being used to cook large quantities of rice. Next door, in the Garhwal region, culinary consultant, Rushina Munshaw Ghildiyal says that the legendary mutton curry called *bhadai ka mutton*, is cooked in a *bhadai*, a stout, heavy-bottomed bell metal pot, with a narrow neck made of mixed alloy. The *bhadai* gives mutton a distinct flavour while ensuring that it's cooked perfectly. It is a flavour fest, Ghildiyal guarantees.

Another utensil unique to

Another utensil unique to

#BOOKWORM

Books to read on Diwali if you aren't able to make it home for the holidays

For those tempted to doomscroll their way through Diwali, here's a list of books to read, instead.


Diwali can be an emotionally charged time for many. For those visiting family, navigating complex family dynamics can be quite taxing. Meanwhile, those who choose to stay put and celebrate Diwali away from their families, regardless of the reason, may feel

an acute sense of loneliness, especially while watching the rest of the country rush home to reunite with loved ones. If you find yourself in this latter category, you might be tempted to doomscroll through the holiday, ultimately feeling even more isolated. To help you avoid this Instagram-induced masochism, we've curat-

ed a list of books that explore themes of loneliness and resilience, celebrating both the joys and challenges of solitude. Reading can provide solace and companionship, transforming isolation into a space for reflection and growth, hopefully turning your Diwali into a time to reconnect with your own inner light.

The Magic Mindset: How to Find Your Happy Place by Preeti Shenoy

When left alone to our devices, it is easy to fall into a rabbit hole of despair especially when you are by yourself during the holidays. Take a proactive approach to your situation with the help of Preeti Shenoy, who insists on fostering a deeper understanding of one's feelings, instead of forcing toxic positivity in moments, where you find yourself anxious or alone. Through relatable stories and practical exercises, covering all aspects of life, Shenoy equips you with tools to foster resilience and joy, reminding you that even in tough times, you're part of a shared journey.



The Woman Who Climbed Trees by Smriti Ravindra

In this evocative narrative, Mahau, the protagonist, finds herself constrained by societal expectations and deep feelings of loneliness after moving countries after marriage. Set against the stunning backdrop of Nepal, her love for climbing trees becomes a powerful metaphor for escape and self-discovery. As she embraces the freedom of nature, Mahau embarks on a journey of empowerment, reflecting on her identity and desires. Ravindra beautifully illustrates how solitude can foster personal growth and healing, encouraging readers to consider their own relationships with nature and the transformative potential of carving out space for oneself.



The Folded Earth by Anuradha Roy


This lyrical novel follows Maya, a woman seeking solace in rural India after the death of her husband. As she grapples with her past and the memories of love and loss, she finds comfort in the landscape and its inhabitants. Roy beautifully captures the essence of solitude after personal tragedy, illustrating how connection to nature and community can help mend a broken heart. Through Maya's journey, the narrative explores themes of belonging, memory and the transformative power of love, inviting readers to reflect on their own experiences of loss and healing.

Shamal Days by Sabin Iqbal


Set in the 1990s against the backdrop of escalating violence in the Middle East, this novel follows Abbas, a middle-aged bachelor heading the editorial team at a newspaper in an imagined Arabian Gulf country. Haunted by loneliness and regret, Abbas reflects on a life filled with 'ifs' and 'maybes', exacerbated by the relentless *shamal* winds. Faced with an opportunity for change, Abbas must confront his indecision. Through the lives of a diverse newsroom staff, Iqbal humorously explores expatriate aspirations and resentments, capturing the complexities of identity and connection in a politically tumultuous landscape. The narrative serves as both, a commentary on the personal and political turmoil of the region, and a reflection on the search for connection amidst the chaos.

The Begum and the Dastan by Tarana Husain Khan

Tarana Husain Khan tells a powerful story about women's resilience in the isolated world of *zenanas* (the part of a house for the seclusion of women) in 1897, Sherpur. Defying her family, Feroza Begum ends up kidnapped and trapped in the *Nauab's* harem, where she navigates a web of power and repression. Generations later, her great-granddaughter, Ameera, faces her own restrictions but finds solace in her *Dadi's* retellings of Feroza's struggles. Through these stories, both women assert their identities and challenge societal norms, revealing how creativity and courage can flourish, even in the most isolating circumstances.



THE WALL




BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने के 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने घटना के 14 दिन बाद आरोपियों को दबोचा

सादुलपुर, (निसं)। हरियाणा सीमा के निकट तहसील के गांव खैरू बड़ी चौराहे पर जीप को जीप से टक्कर मारने तथा लोहे की रॉड से ताबडतोड़ जानलेवा हमला करने के मामले में फरार तीन आरोपियों को हमीरवास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना 14 दिनों बाद फरार तीन आरोपियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है।

थाना अधिकारी मदनलाल बिशनोई ने बताया कि रणधीर सिंह जाट उम्र 44 साल निवासी खैरू बड़ी तहसील राजगढ़ ने मामला दर्ज करवाकर कर बताया कि दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को करीब सुबह 08 बजे उसका भाई अमीर सिंह तथा चाचा का लडका नरेश तथा उसकी दुकान में काम करने वाले मनीराम तथा गांव का ही धर्मपाल जांगिड आदि जीप डीआई में सवार होकर बहल हरियाणा में स्थित अपनी दुकान पर जा रहे थे। गांव से निकलकर शिव मंदिर के पास चौराहे पर पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाकर एक पिकअप बिना बोर्डी



हरियाणा सीमा के पास गांव खैरू बड़ी चौराहे पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार 3 आरोपियों गिरफ्तार किया।

बिना नंबर की काले शीशे रंग सफेद और जिसके चालक ने अपनी पिकअप आगे पीछे बंपर लगा हुआ खड़ी थी। जीप से उसकी जीप को सीधे टक्कर

मारी। तथा उनकी जीप से दो लडके हाथों में लोहे की रॉड लिए उतरे तथा एक रॉड पहले से नीचे खड़े लडके को भी दे दी। फिर पिकअप जीप में बैठा चालक ने अपनी पिकअप जीप से उसकी जीप को लगातार टक्कर मारने लगा। तथा तीनों लडकों ने रॉड से ताबडतोड़ जानलेवा हमला करने लगे तथा शोर शराबा करने पर आरोपी फरार हो गए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा मामला गंभीर प्रकृति का होने के कारण हर संभावित जगहों पर पुलिस ने दबिश दी। हर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। तथा प्रकरण में शामिल आरोपी विजेंद्र उर्फ पिंकू पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल उम्र 34 साल निवासी सोरडा जदीद थाना बहल जिला धिवानी हरियाणा, तथा तुषार उर्फ लाला पुत्र योगीराज जाट उम्र 21 साल तथा गौरव उर्फ खडूर पुत्र राधेश्याम नायक उम्र 21 साल निवासी बिशनपुरा पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू को गिरफ्तार किया गया तथा पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

यात्री विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां देने के 4 मामले दर्ज

जोधपुर, (कासं)। देश भर में असांजिक तत्वों की ओर से हवाई जहाज को उड़ाने की धमकियों के बीच जोधपुर में भी आने वाली और जाने वाली फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकियां देना अब आम बात हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब चार अलग अलग प्रकरण पुलिस में दर्ज करवाए हैं। जिस बारे में पुलिस निरीक्षक हनुमानसिंह की तरफ से तफ्तीश की रही है। सिविल एयरपोर्ट जोधपुर के मैनेजर नरेन्द्र सिंह बांकावात ने पुलिस को बताया कि 20 अक्टूबर को दोपहर सवा एक बजे अज्ञात व्यक्ति ने एक्स हैड पर पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट नंबर 6 ई 133 को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसी तरह 22 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे अज्ञात व्यक्ति ने जी-मेल पर हैदराबाद से जोधपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट 6 ई 297 को बम से उड़ाने की धमकी दी। 24 अक्टूबर को जी-मेल पर पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट नंबर 6 ई 133 को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अलावा चौथी बार में 25 अक्टूबर को धमकी गई थी। इस पर सहायक मैनेजर सिक्यूरिटी राजेन्द्र सिंह भंडारी ने मामला दर्ज करवाया। इनके अनुसार 25 अक्टूबर को दोपहर के समय अज्ञात व्यक्ति ने एक्स टिक्टर पर पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट 6 ई 133 को बम से उड़ाने की धमकी दी।

60 कार्टून में भरी हरियाणा निर्मित शराब बरामद

ददरेवा में पुलिस ने रिहायसी मकान में दबिश दी



नाकाबंदी के दौरान पुलिस को मिली सूचना पर ददरेवा गांव में स्थित एक रिहायशी मकान में अवैध शराब सहित गिरफ्तार आरोपी राजकुमार धाणक।

सादुलपुर, (निसं)। दीपावली पूर्व अंतर्गत नाकाबंदी के दौरान पुलिस को मिली सूचना पर ददरेवा गांव में स्थित एक रिहायशी मकान में पुलिस ने दबिश देकर हरियाणा निर्मित अवैध शराब बरामद की तथा मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सोमवार शाम चार बजे थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाड़िया ने बताया


एक आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज कि नाकाबंदी के दौरान एस.आई. पप्पू राम मीणा को सूचना मिली। जिस मीणा ने पुलिस दल के साथ ददरेवा गांव की आबाद बस्ती में स्थित एक रिहायशी मकान पर दबिश दी। मकान के अंदर एक कमरे में 60-

कार्टून में भरी हरियाणा निर्मित शराब की कुल 516 बोतलें और 84.0 पब्जे बरामद करने की कार्रवाई की। तथा मामले में पुलिस ने 35 वर्षीय राजकुमार धाणक को गिरफ्तार किया है, तथा आरोपी के खिलाफ पहले भी शराब तस्करी के मामले हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अवैध देशी शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटपतली। जयपुर रेन्ज आईजी अजयपाल लाम्बा द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत स्थानीय पुलिस थाना द्वारा प्रभावी कार्रवाई की। अभियान के अंतर्गत एसपी राजन दुष्यंत द्वारा अधिक से अधिक एवं प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिस पर एएसपी वैभव शर्मा के निर्देशन व डीएसपी राजेन्द्र कुमार बुडक के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया।

टीमों द्वारा कड़ी मेहनत व लगन से कार्य करते हुये विश्वसनीय सूत्रों से सूचना संकलन कर गत रविवार को मुल्जिम के कब्जे से कुल 48 पब्जे देशी शुंघर सादा मदिरा शराब को बिना लाईसेंस के कब्जे में रखने तथा बेचान करने पर मुल्जिम रवि कुमार (32) पुत्र धुणाराम कंजर निवासी कंजर बस्ती गोपालपुरा को गिरफ्तार किया।



पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए निकाले

जयपुर। सोडाला थाना इलाके में एक युवक ने एटीएम से छेड़छाड़ कर उसमें से रुपए निकाल लिए। घटना के सम्बंध में एक पीडित ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार पीलवा लोहागढ़ निवासी सुरेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया कि वह रामनगर किराए से रहता है। वह रामनगर स्थित एटीएम पर रुपए निकालने गया था। उसने एटीएम से 10 हजार रुपए निकाल लिए। इसी दौरान एक युवक जल्दबाजी में आया उसे देखकर वह एटीएम से बाहर गया। आरोपी युवक ने एटीएम से छेड़छाड़ी की और उससे कुछ रुपए भी निकाल लिए। युवक के जाने के बाद वह वापस एटीएम में रुपए निकालने घुसा। उसने फिर से दस हजार रुपए निकाले। इस पर एक नोट मशीन में अटक गया और कुछ नोट टेड मेडे आए। उसने एटीएम से रुपए निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं निकला। इस पर वह वहां से चला गया। कुछ दूर जाने पर उसे वह युवक फिर से मिला जिसने मशीन से छेड़छाड़ की थी। युवक फिर से एटीएम में आया।

5 लाख की अवैध शराब से भरी लगजरी कार जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार

डुंगरपुर। धंबोला थाना पुलिस ने गुजरात से सटे पुनावाडा चेक पोस्ट पर एक लगजरी कार से 5 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। कार ड्राइवर को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब की तस्करी कर गुजरात ले जा रहा था। धंबोला थानाधिकारी ने बताया कि चौरासी विधानसभा उपचुनावों की आचार संहिता के तहत अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती की जा रही है। गुजरात से सटे बाँडर पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसी दौरान पुनावाडा बाँडर पर रविवार रात को गुजरात नंबर की एक लगजरी एसयूवी कार को रूकवाया। कार की तलाशी में अवैध शराब भरी हुई मिली। कार ड्राइवर के पास शराब ले जाने के कोई कागजात भी नहीं थे। जिस पर पुलिस ने शराब के साथ कार को जब्त कर लिया। कार से 75 पेट्टी शराब मिली है। जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं, शराब तस्करी कर



धंबोला पुलिस ने गुजरात के पुनावाडा चेक पोस्ट पर एक लगजरी कार से 5 लाख की अवैध शराब पकड़ी।

रहे कार ड्राइवर भंवरलाल पुत्र मादुजी जिला सलुंबर को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस आरोपी से मोणा निवासी खाखल धूपी थाना सराडा शराब को अवैध रूप से तस्करी कर पूछताछ कर रही है।

प्रियंका बिशनोई की मृत्यु के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, कार्रवाई पर उठाए सवाल

जोधपुर, (कासं)। सहायक कलेक्टर प्रियंका बिशनोई की मौत के मामले में सोमवार को समाज के लोगों और परिजनों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने अस्पताल और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तीन दिन पहले ही कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। प्रियंका बिशनोई के ससुर सहिराम बिशनोई ने वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। ज्ञापन में बताया गया कि गत पांच

सितंबर को प्रियंका बिशनोई को वसुंधरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने प्रियंका को एक सामान्य बीमारी बताकर भर्ती किया, लेकिन उसके बाद, उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। न्यूरोलॉजिस्ट ने सीटी स्कैन करने का परामर्श दिया था, जो एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसके बावजूद यह टेस्ट नहीं किया गया। टेस्ट न करने का कोई ठोस कारण भी परिवार को नहीं दिया गया, जिससे अस्पताल की मंशा पर सवाल उठता है। प्रियंका बिशनोई की हालत बिगड़ने पर उन्हें सात सितंबर को अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने रिपोर्ट की जांच के बाद स्पष्ट किया कि मरीज को

‘हेमरेज’ था, जिसका पहले उचित उपचार नहीं किया गया। सिम्स अस्पताल में इस बात की पुष्टि हुई कि वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति के बावजूद उचित परीक्षण और उपचार नहीं किया था। इस दौरान परिवार को मरीज की असल स्थिति के बारे में भी अंधेरे में रखा गया। प्रियंका की मौत के बाद, इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पाया गया कि वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति के बावजूद उसे उचित उपचार नहीं दिया।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद आवश्यक इलाज नहीं किया गया, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ गई। न्यूरोलॉजिस्ट के परामर्श के बावजूद सीटी स्कैन न कराना भी एक गंभीर लापरवाही का संकेत है। वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ के पास यह जानकारी थी कि उनके उपचार में कमी रही है। इसकी जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पाया गया कि वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति के बावजूद उसे उचित उपचार नहीं दिया।

सवाल उठाया कि यदि सहायक कलेक्टर की मृत्यु पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो आम जनता के मामले में न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इस पर कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन को आदेश दिया था कि डॉक्टर संजय माकवाना, डॉक्टर रेनु माकवाना, और वसुंधरा हॉस्पिटल के अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। अब परिजनों व समाज के लोगों ने प्रियंका बिशनोई की संदिग्ध मृत्यु के मामले में मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

1.57 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1.57 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पीडित से 56550 कैंरेट के 11 किलो 300 ग्राम रफ पत्रे लिये थे। इसके बाद आरोपी ने अपनी फर्म बंद कर फरार हो गया था। इस संबंध में पीडित और से थाने में मामला दर्ज करवाया था। थानाधिकारी राजेन्द्र गोदारा ने बताया कि पीडित सचिन तांबी ने खुद के साथ हुई 1 करोड़ 57 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मामला दर्ज करवाया था कि आरोपित हेमंत अजमानी और उसकी पत्नी मेधा ने

आरोपी ने पीडित से 56550 कैंरेट के 11 किलो 300 ग्राम रफ पत्रे लिये थे राजापार्क में एक फर्म मैसर्स अमृत इमपैस के नाम से खोल रखी थी। आरोपी हेमंत ने मोबाइल पर पीडित से सम्पर्क किया और रफ पत्रे की डिमांड की। आरोपी ने पीडित को विश्वास में लेकर 1 करोड़ 57 लाख रुपए के 11 किलो 310 ग्राम पत्रे ले लिए। आरोपी ने कुछ समय तक पैसा नहीं दिया। पीडित ने उसे फोन पर सम्पर्क

किया। पहले कुछ समय तक पीडित निरंतर पैसे जल्द देने की बात करता, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी ने फोन कर लिया। इस पर पीडित सचिन तांबी आरोपी के फर्म पहुंचा तो पता चला कि आरोपी ने कुछ समय पहले ही फर्म बंद कर दी है। इस पर सचिन तांबी की ओर से मार्च 2024 में हेमंत अजमानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने उस की तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश भी दी, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने आज मुखबिर से मिली जानकारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने सात जनों को गिरफ्तार किया



तीन स्थायी वारंटी व 4 गिरफ्तारी वारंटियों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया।

निवाड़ी। निवाड़ी पुलिस ने तीन स्थायी वारंटी व 4 गिरफ्तारी वारंटियों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि पुलिस ने स्थायी वारंटी कर कालोनी

निवासी मदनलाल कीर, टाल वालों का मोहल्ला निवासी सुल्तान अहमद व जैन फार्मिंस के पीछे स्थित जैन कॉलोनी निवासी अमित जैन को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार गोपालपुरा उर्फ दहलोद की

ढाणी निवासी रमेश बैरवा, यादव गोपालपुरा झिलान निवासी गिराज यादव, खोडा का खोडा निवासी हेतराम जाट व पटवार घर के पीछे निवाड़ी निवासी प्रदीप बैरवा को गिरफ्तार किया है।

मुस्लिम महापंचायत में फूटा कांग्रेस के प्रति आक्रोश

‘जब तक टिकट नहीं तब तक वोट नहीं’

झुंझुनू, (निसं)। जिला मुख्यालय स्थित इंदगाह मैदान में मुस्लिम न्याय मंच द्वारा आयोजित मुस्लिम महापंचायत में मुस्लिम समाज ने कांग्रेस का बहिष्कार किया। वक्ताओं ने कांग्रेस पर भेदभाव एवं वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। मुस्लिम न्याय मंच के संयोजक इमरान बडगुजर ने झुंझुनू विधानसभा से आए हुए तमाम मुस्लिम समाज के लोगों का स्वागत किया। राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने कहा कि मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। मेरे लिए मेरी कौम और मेरा समाज मेरी प्राथमिकता है। चोपदार ने सांसद बुजेंद्र ओला पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमित ओला एक ऐसा उम्मीदवार है। जिसे यही नहीं पता कि मैं कांग्रेस द्वारा चेयरमैन हूँ या बीजेपी



झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित इंदगाह मैदान में मुस्लिम न्याय मंच की ओर से मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया गया।

है। जबकि आपने समय-समय पर कांटोस के साथ गद्दारी की है। पूर्व जिला कलेक्टर अशफाक हुसैन ने अपना नामांकन वापिस लिया और

कहा कि मैं हमेशा समाज के साथ खड़ा हूँ और समाज जो निर्णय करेगा मैं उसके साथ हूँ। सभा को मकबूल हुसैन पार्षद ने संबोधित करते हुए कहा कि

कांग्रेस ने झुंझुनू में हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य रहा है कि मुस्लिम समाज को राजनीतिक आधार पर

कमजोर किया जाए। खादिम खोखर ने कहा कि मुस्लिम समाज इस उपचुनाव में कांटोस का बहिष्कार करता है तथा अपने वजूद को बचाने के लिए संपूर्ण मुस्लिम समाज को एक होना पड़ेगा। निशान भारू, गुलाम हुसैन, उस्मान पठान, इब्राहिम खान, आलम शेर एवं शकील फौजी आदि ने भी संबोधित किया। महापंचायत में पार्षद जम्बर फूलका, मुफ्ती इमरान, हाफिज जकी, मौलाना रिजवान, मौलाना शोयब, मौलाना मोहम्मद, मौलाना शकरुद्दीन, गुलाबनबी दानका, अलादीन, डॉ. युनुस, आबिद अली, इरफान खान, इमरान राईन, बबलू चोपदार, अकरम चोपदार, युनुस चोपदार, युनुस रंगरेज, लतीफ खानजादा, मो. शरीफ, जाकिर हुसैन, शफीक अहमद, अब्दुल नयुम सहित राजकी संख्या में लोग शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अजहर हुसैन ने किया।

924 किलो आतिशबाजी जब्त, दो व्यापारी गिरफ्तार

शिकायतों के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की

अलवर। एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद खैरखत-तिजारा जिले के किशनगढ़बास में खुलेआम पटाखों की बिक्री की जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक पटाखा व्यापारियों पर शिकंजा कसा। टीम ने दो दुकानों पर छापा मारकर 924 किलो पटाखों की खेप बरामद की और दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया।



किशनगढ़बास में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर पुलिस ने दबिशा दी।

उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव ने बताया कि प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि किशनगढ़बास के विशिष्ट मार्केट में अनेक पटाखों की बिक्री हो रही है। इस पर पुलिस और प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया। एसडीएम मनीष कुमार जाटव, तहसीलदार नरेंद्र भाटिया, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत और एसआई ज्ञानचंद की टीम ने रविवार को अभियान चलाया,

जिससे व्यापारियों को आतिशबाजी छिपाने का मौका नहीं मिला।

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने किशनगढ़बास निवासी जितेंद्र उर्फ

जीतू और बम्बोरा गांव के निवासी मनोज धीवर को गिरफ्तार किया।

जितेंद्र के कब्जे से 32 किलो 200 ग्राम और मनोज धीवर के पास से 892 किलो पटाखे बरामद किए गए। किशनगढ़बास के विशिष्ट मार्केट में बने इन गोदामों में भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे, जो सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा थे। अधिकारियों का मानना है कि यह खेप दीवली के त्योहार पर बेचने के उद्देश्य से जमा की गई थी।

थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह कार्रवाई रविवार दोपहर 3 बजे से देर रात 9 बजे तक चली। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन अब इलाके में अवैध पटाखा व्यापार की रोकथाम के लिए लगातार निगरानी रखेंगे। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के पटाखा व्यापारियों में हडकंप मच गया है। प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई ने न केवल स्थानीय नागरिकों को राहत दी है, बल्कि अवैध व्यापार में लिप्त अन्य लोगों के लिए भी यह एक सख्त चेतावनी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम में कार्यरत जेएलओ राधिका बंसल राज्य में टॉपर

बीकानेर। राजस्थान ज्युडिशियल सर्विस (आरजेएस)- 2024 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। जिसमें कुल 222 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। टॉप 10 में से 9 स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी है। बीकानेर संभाग की राधिका बंसल ने जनरल कैटेगरी में राज्य में टॉप किया है। राधिका वर्तमान में बीकानेर नगर निगम कार्यालय में कनिष्ठ

विधि अधिकारी (जेएलओ) के पद पर कार्यरत है। राधिका ने 300 नंबरों के पेपर में 188 अंक हासिल कर नंबर वन रैंक प्राप्त की है। आरजेएस परीक्षा में बीकानेर का दबदबा रहा है।

बीकानेर से करीब 12 से अधिक अभ्यर्थियों का इस परीक्षा में चयन हुआ है। राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर के सात अभ्यर्थियों का आरजेएस 2024 परीक्षा में चयन हुआ है। जिसमें छः छात्राएं हैं। राजकीय विधि कॉलेज की छात्रा शैली आचार्य ने 66वीं और रेनु बाला ने 68वीं रैंक हासिल की है। जबकि मोनिका राजपुरोहित ने 71वीं, महिमा ने 91वीं, प्रियंका सोलंकी ने 108वीं, ओमप्रकाश राईका ने 197, ऋचा जाटव ने 213वीं रैंक हासिल कर बीकानेर का नाम रोशन किया है। इसके अलावा बीकानेर की ही देवयानी शर्मा ने पहले प्रयास में 26 वीं रैंक हासिल की है। सुनील में रहने वाली बीकानेर मूल की लक्ष्मी पुराणा का भी आरसीएस परीक्षा में चयन हुआ है। जज का बेटा आदित्य व्यास भी बना जज

बीकानेर मूल के आदित्य व्यास का प्रथम प्रयास में 47 रैंक पर आरजेएस में चयन हुआ है। आदित्य के पिता उमाशंकर व्यास वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में न्यायाधिपति के पद पर कार्यरत हैं वहीं उनकी मां नंदनी व्यास जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर में पद पर कार्यरत है। आदित्य की बहन सोनल एवं जीजा पुरुषोत्तम भी वर्तमान में अलवर में सिविल न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। आरजेएस परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाली राधिका बंसल ने 'भास्कर' से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आपको सफल होना है तो पढ़ाई को पूरा समय देना होगा। बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले में रहने वाली राधिका ने तीन महीने पहले ही नगर निगम बीकानेर कार्यालय में जेएलओ के पद पर कार्य ग्रहण किया था। राधिका ने बताया कि आरजेएस बना राधिका का अनाम पहला सपना था। जिसे लगातार कटिबन्धन और अध्ययन से उन्होंने हासिल किया है।

कार्यालय नगर परिषद जैसलमेर (राज.)
 दिनांक - 25/10/2024
निविदा सूचना 12/2024-25 NIB Code DLB2425A3586
 नगर परिषद जैसलमेर की ओर से नगर परिषद जैसलमेर में उपयुक्त श्रेणी व अन्य विभागों में "ए" व "एए" श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से उपरोक्त कार्य हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्तें आदि वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.in> व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है। उक्त कार्य के यू.बी.एन. नं. DLB2425WSOB11266, 11267, 11268, 11269, 11271 है।
 आदित्य
 नगर परिषद जैसलमेर
 राज.सं.बा.व./सी/24/7044

कार्यालय नगर परिषद, केकड़ी - राजस्थान
 दिनांक - 23.10.2024
ई-निविदा सूचना (11/2024-25) (NIB No. DLB2425A3598) :-
 एल्ट द्वारा है कि नगरपालिका परिसर केकड़ी में पंजीकृत पंजीकृत पंजीकृत/संस्था/फर्म/संस्थान से पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रयत्न में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बंधित अधिक जानकारी वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है एवं किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में आकर देखी जा सकती है। निविदा के कुल कार्य - 5 (पांच)
 UBN NO. - 1. DLB2425WSOB11288 , 2. DLB2425WSOB11289, 3. DLB2425WSOB11290, 4. DLB2425WSOB11291, 5. DLB2425WSOB11292
 समाप्ति आयुक्त
 नगर परिषद केकड़ी
 राज.सं.बा.व./सी/24/7087

कार्यालय नगर निगम, पाली (राज.)
 दिनांक - 24.10.2024
ई-निविदा सूचना संख्या 08/2024-25
 नगर निगम, पाली की ओर से स्थावर शासन विभाग/नगर निगम, पाली से पंजीकृत या अन्य विभागों में "ए" श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से 08 कार्यों की (अनुमानित लागत रु. 49.94 लाख) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। संवेदक दिनांक 25.10.2024 को प्रातः 09.00 बजे से दिनांक 05.11.2024 को सां. 6.00 बजे तक ऑनलाइन निविदाएं जमा कर सकते हैं। निविदा से सम्बंधित अधिक विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> व <https://eproc.rajasthan.gov.in> से तथा अहोरात्रिकता के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त 08 कार्यों के यू.बी.एन संख्या निम्नानुसार है।
 DLB2425WSOB11173 DLB2425WSOB11175 DLB2425WSOB11177
 DLB2425WSOB11179 DLB2425WSOB11180 DLB2425WSOB11182
 DLB2425WSOB11183 DLB2425WSOB11184 DLB2425WSOB11186
 आयुक्त
 नगर निगम, पाली

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
 दिनांक 25/10/2024
ई-नीलामी विज्ञापित संख्या-ERCC(XV/2024)
 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अग्रगण्य खनिज विभाग निदेशालय, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञापित से अग्रगण्य खनिजों के प्राथमिकी खनन पट्टी/व्यवस्थापित क्षेत्रों व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रीमियम शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ए.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 12 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुद्रक शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनी MSTC की वेबसाइट www.mstccommerce.com पर उपलब्ध है।
 (भगवती प्रसाद) IAS
 निदेशक
 DIPRC/10544/2024

OFFICE OF THE MUNICIPAL BOARD, DEOGARH
 दिनांक - 25.10.2024
Notice Inviting BID
 NIB No 11/2024-25
 नगर पालिका देवगढ़ द्वारा निम्नांकित विकास कार्यों हेतु केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों व अधिकृत संगठनों व स्थावर शासी संस्थाओं में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से इलेक्ट्रॉनिक फारमेंट में ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बंधित विस्तृत विवरण व जानकारी वेबसाइट www.sppp.raj.nic.in or <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखी एवं डाउनलोड जा सकता है।
 NIB CODE :- DLB2425A3578
 UBN No :- DLB2425WSOB11260
 महत्वपूर्ण तिथियां

क्र.सं.	कार्य का नाम	UBN NO.	NIB NO.
1	Consultancy Work for Preparation of Detailed Project Report (DPR) For Construction of High Level Bridge on Salpuram to Bholi-Dabra-Shekhpura-Golhra-Varwasan Devi-Naroli-Kaladevi Road at Varwasan Devi With SBC Tests, Hydraulic Design and Drawing and OPM of 5.50 Mt Wide Road (3000K) With Hydraulic Design and Drawing of CD Works including Forest Clearance.	PWD2425SL080731	WD2425A2368

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-सपोटारा
 दिनांक- 22.10.2024
निविदा सूचना संख्या-12/2024-25
 राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न कार्यों हेतु उद्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों/अन्य एल्ट राज्य सरकार/रेलवे सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय/राज्य निर्माण/इकाई एवं वित्त विभाग/रेलवे इत्यादि के पंजीकृत संवेदकों को कि राज्य सरकार के एल्ट ए वी सी डी श्रेणी के संवेदकों के सम्पर्क हो से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रयत्न में प्रात की जायेगी। अल्पकालीन निविदाओं से संबंधित विवरण वेबसाइट www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
 अधिशाही अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड सपोटारा
 DIPRC/10509/2024

अवैध डोडा-पोस्ट सहित एक आरोपी गिरफ्तार



पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

बालोतरा, (निर्स)। बालोतरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध सप्ताह की लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन भौकाल के दौरान तस्करी के खिलाफ कार्यवाही कर 679.655 किलोग्राम डोडा पोस्ट (कीमत करीब 50 लाख रुपये) सहित परिवहन में प्रयुक्त प्रॉविन्ट एम्बुलेंस वाहन को जबा किया। डोडा पोस्ट तस्कर भोमाराज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि प्रॉविन्ट एम्बुलेंस वाहन में 33 काले रंग के प्लास्टिक कट्टों में भरे कुल 679.655 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट जिसकी कुल कीमत 50 लाख रूपए आंकी गई है, को बरामद कर मादक पदार्थ तस्कर भोमाराज जाट को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ज्ञात रहे कि 27.10.2024 को भंवरलाल उनि. थानाधिकारी बायत मय जाला द्वारा मुखबीर सुचना अनुसार पुलिस थाना बायत के आगे बैरियर लगाकर नाकाबन्दी की जा रही थी। दोराने नाकाबन्दी नेशनल हाईवे से जोधपुर की तरफ से आ रही एक एम्बुलेंस वाहन को संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा

रुकवाने का प्रयास किया तो एम्बुलेंस चालक द्वारा नजदीक आने पर पुलिस नाकाबन्दी को देखकर एम्बुलेंस की बत्ती व सायरन को चालू कर पुलिस जाब्ता को जान से मारने की नियत से बैरिकेट को टक्कर मारकर हवा में उडा दिया, बैरियर एम्बुलेंस के मैंन शीशे पर गिरने से शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस जाब्ता द्वारा अपनी सूझबूझ व सजगता से अपना बचाव करते हुए एम्बुलेंस चालक नाकाबन्दी तोड़कर भागने पर जिसका निरन्तर सरकारी वाहनों से पीछा कर सरहद कोसिरिया में एम्बुलेंस को रुकवाया तो एम्बुलेंस में सवार चालक व खलासी एम्बुलेंस को छोड़कर भागने लगे जिस पर चालक भोमाराज पुत्र रूखाराम जाति जाट उम्र 29 साल निवासी जाखडो की ढाणी, सनावडा पुलिस थाना सदर जिला बाडमेर को दस्तखत किया गया। एम्बुलेंस में अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ होना बताया। एम्बुलेंस में 33 काले रंग के प्लास्टिक कट्टों में भरे कुल 679.655 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट सहित तस्करी में प्रयुक्त वाहन एम्बुलेंस को बरामद किया।

राजगढ़। अलवर मार्ग पर रेलवे अंडरपास गेट नंबर 138 के पास 24 अक्टूबर को रात्रि लोहा व्यापारी की कार पर फायरिंग कर जान से मारने व लूटपाट के इरादे को लेकर फायरिंग के शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी महुआ थाने का हिस्ट्रीशीटर है। गिरफ्तार आरोपी भगवान सहाय मीणा उर्फ काडू 27 वर्ष पुत्र दिलीप सिंह निवासी महुआ थाने का हिस्ट्रीशीटर है। शातिर बद्रामाश के विरुद्ध खेडूली, मंडावर, जयपुर, धुसावर, अलवर सहित अन्य थानों में 26 गंभीर मामले दर्ज हैं। एडिशनल एसपी प्रियंका ने बताया कि महानिरीक्षक अजय पाल लांबा एवं संचो व नैन जिला पुलिस अधीक्षक के निदेशों में उष अधीक्षक मनीषा मीणा की मार्गदर्शन में वारदात के बाद टीमें का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लाते समय



राजगढ़ में फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया।

टॉयलेट के बहाने फरार होने का असफल प्रयास किया। इस दौरान पहाड़ी पर भागते समय उसके पैरों में चोट आई। आरोपी

गैंग का सरगना है जिसे कड़ी पछुताह की जा रही है। विदित रहे कि लोहा व्यापारी हरिशंकर गुप्ता निवासी राजगढ़

जान से मारने व लूटपाट के इरादे से की थी फायरिंग
 एंव चालक महेंद्र मीणा को गोदाम से अपात समय बद्रामाशों ने कार पर फायरिंग की एवं व्यापारी को जान से मारने को लेकर चलाई गेली चालक के लग गई। इसमें चालक महेंद्र मीणा को गंभीर हालत में राजगढ़ से अलवर रैफर कर दिया। इसमें साइबर सेल एवं आने तकनीकी अनुसंधान की कुशलकार्मिकों की टीम बनाई गई। इसके बाद आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। इस टीम में थानागजी एवं लक्ष्मणगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य दर्जन पर अधिकारी कर्मचारी ने कड़ी मेहनत की। सुंदर सोमवार को आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया।

डीएलएड पूरक परीक्षा की तिथियों में बदलाव

बीकानेर। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से 25 अक्टूबर से शुरू हुईं डीएलएड पूरक परीक्षा- 2023 की तिथियों में बदलाव किया गया है। दीवली पर्व के कारण 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को आयोजित होने वाली सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पूरक परीक्षा अब 5 नवंबर 6 नवंबर को आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए हैं। विदित रहे कि पूर्व में पूरक परीचय 30 अक्टूबर तक आयोजित होनी थी। लेकिन अब परीक्षाओं का समापन 6 नवंबर को होगा। परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया गया है।

बायोपार्क के रेस्क्यू सेंटर में इलाज के दौरान दो पैंथर की मौत

उदयपुर, (का.सं.)। आदमखोर पैंथर के खौफ से चर्चा में आये उदयपुर में पिछले 20 दिनों में 4 पैंथर की मौत भी हो चुकी है। दो पैंथर इलाज के दौरान रेस्क्यू सेंटर पर मर गए। सच ऑपरेशन के दौरान एक पैंथर को गोली मारी गई। वहीं एक पैंथर को लोगों ने मार दिया। उदयपुर के गोगुंदा और झाड़ोले में पैंथर 10 लोगों का शिकार कर चुका है। वहीं 20 दिनों में चार पैंथर की भी मौत हो चुकी है। सच ऑपरेशन के दौरान एक पैंथर को गोली मारी गई। वहीं एक पैंथर को लोगों ने मार दिया। दो पैंथर इलाज के दौरान रेस्क्यू सेंटर पर मर गए। दरअसल गोगुंदा और झाड़ोले में पैंथर द्वारा लगातार हमले के बाद वन विभाग ने बाहर से टीमें बुलाकर गोगुंदा

आला अधिकारियों को भेजी जाती है। इधर वन विभाग की टीम उदयपुर के पास लखावली गांव के पास से 21 अक्टूबर को पिंजरे में आए पैंथर को लेकर आये थे। 22 अक्टूबर की सुबह वह बायोलाॅजिकल पार्क से पैंथर पिंजरे से भाग गया। वन विभाग ने वहां सच ऑपरेशन शुरू किया और पूरा बायो पार्क छान मारा लेकिन पैंथर कहीं नहीं दिखा और बायोपार्क में टूरिस्ट का प्रवेश बंद कर दिया था। वन विभाग को जब यह लगा कि पैंथर बायोपार्क में नहीं दिखा तो उसके बाद शनिवार को बायो पार्क टूरिस्ट के लिए खोला था। विभाग ने अब अंदेशा जताया कि पैंथर यहां नहीं दिखा तो अब वह सज्जगदर्द अभयारण्य परिया में चली गई है।

वेदी को लेकर मंदिर में ही लड़ने लगे जैन समाज के दो पक्ष

मंदिर परिसर में दोनों पक्षों के बीच लात-घुंसे चले, जमकर हाथापाई थी हुई, मामला थाने पहुंचा

कोटा, (निर्स)। अहिंसा का अनुसरण करने वाले ही अगर मारपीट पर उस जगह पर उतारू हो जाए जहां पर अहिंसा के प्रवचन दिए जाते हैं तो मुद्दा काफी गंभीर हो जाता है। कुंडी रिडि-सिद्धि नगर स्थित जैन मंदिर ऐसा नजारा रविवार की रात देखने को मिला। जहां पुरानी वेदी तोड़ने को लेकर विवाद गहरा गया। मंदिर परिसर में दोनों पक्षों के बीच लात-घुंसे चले, जमकर हाथापाई भी हुई। मामला इतना गहराया की थाने पहुंच गया।



मारपीट होने पर दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर शिकायत दी गई है।

दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर शिकायत दी गई है। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रविवार देर रात तक पुलिस बल पर मंदिर पर तैनात रहा। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि रिडि-सिद्धि नगर स्थित जैन मंदिर में पुरानी वेदी को हटाने को लेकर मंदिर ट्रस्ट और समिति के बीच में विवाद हुआ था। दोनों पक्ष के बीच मारपीट की शिकायत आई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। मंदिर ट्रस्टी राजकुमार सबदरा और अशोक हरसोरा ने शिकायत दी है कि मंदिर का शिलालेख 2003 में हुआ था और वेदि विभाजित से बनाया गया था। पूर्व से ही मामला वेदी को लेकर गहराया हुआ है। उसके बाद भी गुरु सेवा संघ ने मंदिर ट्रस्ट और समाजजनों की बिना सहमति के मंदिर की पुरानी वेदी को

तोड़ना शुरू कर दिया। सूचना पर समाज के लोगों ने पहुंचकर विरोध किया तो उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। सचिन गोहिल, संदीप जैन, रोमिल जैन, प्रियंका जैन, अलका जैन और रोशन जैन तथा लाभचंद जैन घायल हुए हैं। वेदी समिति के पारस बंसल का कहना है कि समाज के अधिकतर लोग उनके पक्ष में हैं। मंदिर में बिना किसी तोड़फोड़ के ग्रेनाइट के ऊपर ही चांदी की वेदी लगाई जा रही है। पूर्व में जो काम हुए हैं उसे देखा जाए तो वेदी के नीचे जो स्थान है वह पूरी तरीके से पोला है। मंदिर पर एक दो परिवार अपना एकाधिकार समझते हैं वे लोग ही ऐसा विवाद खड़ा कर रहे हैं। वहीं इस विवाद पर नजर रखने वाले समाज के व्यक्ति

का कहना है कि समाज का आपसी विवाद बाहर आना समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। समाज के सुनौल जैन का कहना है कि जब से मंदिर स्थापित हुआ है सब कुछ अच्छा हो रहा है ऐसे में वेदी के साथ छेड़छाड़ करना उचित प्रतीत नहीं होता। ऊपर प्रथमि स्थापित की जा रही है तो वहीं पर चांदी की वेदी भी बना दी जाए। कई बार महाराज श्री से भी इस विवाद में बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रार्थना की जा चुकी है। परंतु ऐसा नहीं हो पाया और अब विवाद खुलकर लोगों के सामने आ गया है जो किसी भी स्थिति में समाज के लिए टीक नहीं है। वहीं कोटा के रिडि-सिद्धि नगर स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 27 अक्टूबर 2024 को श्रुत समाधान

कार्यक्रम के दौरान हंगामे की घटना से सकल जैन समाज में रोष है। नदी पार सकल दिग्गजर जैन समाज के पदाधिकारियों ने हजारा की संख्या में एकत्रित होकर मौन जुलूस निकाला और अपना रोष प्रकट किया। मंदिर अध्यक्ष राजेन्द्र गोधा ने बताया कि दोपहर 2.30 बजे जैन समाज हजारा लोग रिडि-सिद्धि जैन मंदिर में एकत्रित होकर, हाथों पर काली पट्टी बांध कर, कतारबद्ध होते हुए मंदिर से कुन्हाड़ी थाने पहुंचे और गुरुदेव संत आदित्य सागर महाराज से अग्रदत्तों के खिलाफ सहाज पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। सचिव पंकज खटोड़ ने बताया कि जुलूस में बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, युवा व जैन समाज के

मंत्री पारस बज आदित्य, कोषाध्यक्ष निर्मल अजमेरा, राजेन्द्र गोधा, सचिव पंकज खटोड़, कोषाध्यक्ष ताराचंद बडला, पारस लुहाड़िया, राजकुमार पाटनी, संजय लुहाड़िया, पारस कासलीवाल, विनोद सारसोप, पुष्प लुहाड़िया, राजकुमार पाटनी, दीपक नान्ता, दीपूष बज, दीपांशु जैन, राजकुमार बाकलीवाल, जम्बू बज, महेंद्र गोधा, पदम बाकलीवाल, अशोक पापड़ीवाल सहित हजारों महिला व पुरुष भारी संख्या में कुन्हाड़ी पुलिस थाने पर एकत्रित हुए।

जैन समाज के चतुर्मास समिति और श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर समिति और कुन्हाड़ी सकल जैन समाज के लोगों ने मिलकर थाना अधिकारी को ज्ञापन साँपा और उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग की। समाज ने यह भी अनुरोध किया कि महाराज के चतुर्मास और आगामी पंचकल्याणक महोत्सव के आयोजन में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी असांजाजिक तत्व को सख्ती से रोका जाए। मौन जुलूस में बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने उपस्थित होकर गुरु के अपमान का असहनीय बताया। संजय लुहाड़िया ने मंदिर परिसर में अनशज पर बैठकर न्याय की मांग कर रहे हैं। समिति का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

संक्षिप्त

चन्द्रकवि को देवल आशीष काव्य रत्न सम्मान से नवाजा

निवाड़ी। सुरिया निवासी श्रृंगार हास्य कवि मास्टर सोनू चन्द्रकवि को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के काव्य अधिवेशन में देवल आशीष काव्य रत्न सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान देश के एक सौ एक कलमकारों को प्रदान किया। समारोह में राजस्थान एमपी यूपी, हरियाणा, पंजाब व बिहार राज्यों के कवियों ने भाग लिया। समारोह का आयोजन ब्राह्मी फाउंडेशन व आरडी ईजीनिरियर्स कॉलेज गाजियाबाद के संयुक्त तत्वावधान तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर कालोज के चेयरमैन राकेश शर्मा, फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुभव शुक्ला, संगठन प्रमुख शिखा इंदीत, राष्ट्रीय कवि सुनील साहिल, राष्ट्रीय हास्य कवि चेतन चर्चित, सुरेन्द्र जैन, कवियत्री गीत दीक्षित, कवि अंजुल दुबे, डॉ. सुरेशकुमार अकेला, कवि सत्यम भारद्वाज व कवियत्री भारती भानु सहित कई राष्ट्रीय कवि समारोह में शामिल हुए।

द्वितीय रेंडमाइजेशन संपन्न

टोंका। विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवली-अनियारा विधानसभा सीट पर 13 नवंबर 2024 को मतदान होना है। इसी को लेकर सोमवार को सामान्य पर्यवेक्षक आशीष ठाकरे एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सोम्या झा की उपस्थिति में मतदान दलों का द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया। मतदान दलों के साथ-साथ आरक्षित दलों का भी रेंडमाइजेशन किया। इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सौरिकर, सीईओ परशुराम धानका, एनआईसी के डीईओ रमेशचंद्र जैन, एडीईओ सुशील कुमार अग्रवाल एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बुद्धप्रकाश शर्मा मौजूद रहे।

3 स्थायी व 4 गिरफ्तारी वारन्टी गिरफ्तार

टोंका। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा चलाये जा रहे अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान के अन्तर्गत निवाड़ी वृत्ताधिकारी मृत्युंजय मिश्रा व निवाड़ी थानाधिकारी हरिमन ने विशेष दल का गठन कर निवाड़ी क्षेत्र में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराध की रोकथाम हेतु कार्यवाही करते हुए लम्बे समय से फरार चल रहे तीन स्थायी वारन्टी जिसमें मदन लाल पुत्र नागगम जाति कर उम्र 49 साल निवासी कीर कॉलोनी पहाडी चुंगी नाला निवाड़, सुल्तान अहमद पुत्र अब्दुल मजिद खां उम्र 28 साल निवासी टाल बालो का मोहल्ला निवाड़ी व अमित जैन पुत्र सुरेशचन्द्र शास्त्री उम्र 29 साल निवासी जैन फाईनेस के पीठे वार्ड न. 19 निवाड़ी तथा गिरफ्तारी वारंटियों में चार आरोपी रमेश पुत्र रघुनाथ बेवा उम्र 58 साल निवासी गोपालपुर, गिरांज पुत्र गोल यादव उम्र 38 साल, हेताराम पुत्र प्रहलाद बैवा उम्र 30 साल निवासी खोडा का खोडा, बरौनी व प्रदीप पुत्र गुलाबचन्द बैवा उम्र 38 साल निवासी पटवार घर के पीछे कस्ब निवाड़ जिला टोंक को गिरफ्तार किया गया।

दीपावली मिलन समारोह मनाया

राजगढ़। कस्बे के अनेक सामाजिक संगठनों ने आधाशिला संस्थान में विशेष योगदान बच्चों के साथ दीपावली मिलन समारोह मनाया। इस समारोह का उद्घाटन उप अधीक्षक मनीषा मीणा ने किया। सभी सदस्यों ने दृष्टि बाधित छात्र कर्ण का केक काटकर जन्मदिन मनाया एवं बधाई दी। सभी सदस्यों ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित दीपकों की खरीद को सौभाग्य से खेम सिंह आर्य, भूपेंद्र शर्मा रामनिवास मीणा, विश्राम सेन, नरेश बंसल, ममता गुला, प्रीति विजय, पदमा गोयल एवं प्रेमचंद्र जैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संस्थान के निदेशक आर सी मीणा ने सभी का धन्यवाद स्थापित किया।

प्रदेश महासचिव नियुक्त

मनोहरपुर। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ताला के यूनानी डॉक्टर रिजवान अहमद को भारतीय किसान यूनियन संग्राम अराजनीतिक राजस्थान के प्रदेश महासचिव नियुक्त होने पर ग्राम ताला में खुशी को लहर दौड़ गई है।

पोस्टर का विमोचन
कोटपुतली। सैनी विकास संगठन के तत्वावधान में आगामी 12 को कस्बे की झाण्डी दीपावली स्थित शिव मंदिर में आयोजित किये जाने वाले संघ के सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर पदाधिकारियों ने अविभागा गहलौत से पोस्टर का विमोचन करवाया।

सोने -चांदी के आभूषण व नकदी चोरी करने वाले दो अपराधी गिरफ्तार

कोटपुतली। स्थानीय थाना पुलिस ने घर में घुसकर अलमारी तोड़कर सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी करने वाले शांति नरकबजनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किये गये आभूषण व नकदी बरामद की है। एसएचओ राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लाम्बा द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत एसपी राजन दुथ्यंत के निर्देश पर एसपी वैभव शर्मा के निर्देशन व डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरडक के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा लगन से कार्य करते हुये विश्वसनीय सूत्रों से आसूचना संकलन कर इलाका थाना क्षेत्र में ही रही चोरियों पर अंकुश लगाते हुये घर में घुसकर अलमारी तोड़कर सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी करने वाले



पुलिस गिरफ्त में दो आरोपी।

शांति नरकबजनों को गिरफ्तार किया गया। मुल्लिमान विशाल उर्फ लाला व

आकाश के कब्जे से चोरी किये गये आभूषण व नकदी बरामद की गई।

'राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता की पालना करें'

टोंका। विधानसभा उपचुनाव-2024 (देवली-अनियारा) के तहत सामान्य पर्यवेक्षक आशीष ठाकरे की अध्यक्षता में सोमवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सोम्या झा, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान एवं व्यय पर्यवेक्षक रूचिता सत्यवादी भी मौजूद रहे। सामान्य पर्यवेक्षक ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उपचुनाव-2024 के दौरान राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्धारण किया गया है, जिसकी पूरी पालना चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व दलों को करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी 40 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें आपराधिक रिकार्ड का भी निश्चित समय अवधि में समाचार

पत्रों व टीवी चैनलों में तीन बार प्रकाशन व प्रसारण करवाना होगा। आचार संहिता में वाहन, रैली, सभा, जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके लिए निर्धारित फॉर्मट में आवेदन करना होगा। ठाकरे ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं हो। जिला प्रशासन द्वारा एफएसटी, वीएसटी एवं एसएसटी टीमों के माध्यम से सतत निगरानी रखी जा रही है। आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए पंपलेट व पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य दें अन्यथा 1951 की धारा 127 क के तहत कार्रवाई की जाएगी। सामान्य पर्यवेक्षक ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ईएसएमएस (चुनावी जपती प्रबंध प्रणाली) की प्रक्रिया एवं जपती की कार्यवाही के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।

मालपुरा। मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के सीतारामपुरा गांव में सोमवार को चोरी क्लिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारम्भ। जिला परिषद सदस्य छोगालाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर खेल प्राण्डप पर क्रिकेट प्रतियोगिता की पहली बॉल खेल किया शुभारम्भ। मौजूद खिलाड़ियों को प्रथम विजेता को 11 हजार व द्वितीय विजेता को 5100 रुपये दिया जायेगा पुरस्कार

सम्बोधित करते हुये डीआर छोगालाल गुर्जर ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलने से आपसी भाईचारा तो बढ़ता ही साथ ही सदभावना पूर्ण खेल से स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क

समस्याओं के निराकरण के लिए अनुरोध किया

सांभरझौला। सांभर एसडीएम सरिता चौधरी को व्यापार महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार गट्टानी, महासचिव बनवारी लाल सिंघानिया ने पुष्प गुच्छ भेंट कर समस्याओं की निराकरण के लिए अनुरोध किया। पदाधिकारियों ने एसडीएम को बताया कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से उनको आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ता है। देवयानी छोटा बाजार तोड़ी गई सड़क 4 महीने से ठीक नहीं करवाई जा रही

■ **पदाधिकारियों ने एसडीएम को बताया कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से उनको आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ता है**

है जिसकी वजह से यहां के व्यापारियों व राहगीरों को मुश्किल



सांभर एसडीएम को पुष्प गुच्छ भेंट कर समस्याओं के निराकरण के लिए अनुरोध किया।

का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली के त्यौहार के अवसर पर मुख्य बाजारों में भारी वाहनों के आवाजाही पर रोक लगाई जाए ताकि लोगों को बाजारों में खरीदारी करने में कोई दिक्कत ना हो और लोगों की सुरक्षा भी हो सके। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि सड़क को लेकर अभी तक नगर पालिका के स्तर से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कोई

एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है क्योंकि नगरपालिका ने मना कर दिया कि सड़क हमने नहीं तोड़ी है और 4 महीने से सड़क टूटी पड़ी है और पालिका यह जानते हुए भी अभी तक मोन क्यों है। इससे साफ पता चलता है कि उनकी कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत है। व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कोई

बाबा कुंदन दास रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के 13 वें संस्करण का उद्घाटन

पावटा। ग्राम पंचायत तुलसीपुरा में आयोजित बाबा कुंदन दास रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के 13 वें संस्करण का उद्घाटन जयपुर ग्रामीण कांग्रेस सांसद प्रत्याशी रहे अनिल चौधडा के मुख्य आतिथ्य व गोरक्षक व सरपंच विनोद गोठडी, योगी पंचगव्य नाथ, विराटनगर सरपंच संघ अध्यक्ष शीशराम दायमा, राजेश यादव के विशिष्ट आतिथ्य एवं सरपंच अर्चना राजेंद्र चौधरी कि अध्यक्षता में टूर्नांका अनावरण कर व फीता काटकर भव्य आतिशबाजी के बीच शनिवार रात्रि को किया गया। इस दौरान अनिल चौधडा ने कहा कि खेल खेलना समय कि बर्बादी नहीं समय का सदुपयोग है। आप जिस खेल को खेलते हैं उसके प्रति गंभीर रहें। आप उस खेल में महारत हासिल कर सकते हैं। खेल को खेल कि भावना से खेलना वाला खिलाड़ी ही जीवन में सफलता के लिए अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि मौजूद



ग्राम पंचायत तुलसीपुरा में आयोजित बाबा कुंदन दास रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के 13 वें संस्करण का उद्घाटन

सरकार यह सुनिश्चित करे कि खिलाड़ियों को सुविधा मिले। उद्घाटन समारोह में आयोजक वेदप्रकाश गिठाला, धर्मेंद्र गिठाला व ग्रामीणों ने अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया।

मुय अतिथि अनिल चौधडा ने बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर अमित गजराज, ओपी बायला, राजीव डहरवाल, गणेश सैनी, महेश बैराठी, कमलेश बाज्या, रामजीलाल सिंह, अजय

गुणवत्ता सही नहीं मिलने पर 3 लाख का जुर्माना

भिवाड़ी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने भिवाड़ी में अवमानक पनीर साबित होने पर शिव शेखावाटी मिश्रान भंडार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना किया है अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने बताया कि सोमवार को भिवाड़ी के हरचंदपुर चौक निहाल मार्केट में राम गोपाल पुत्र नागर राम की शिव शेखावाटी मिश्रान भंडार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पनीर का सैपल लिया। पनीर का सैपल अवमानक साबित होने पर फार्म पर 3 लाख रुपए का जुर्माना किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है

■ **आरोपीयों के कब्जे से चोरी किये गये आभूषण व नकदी की बरामद**

विगत रिपोर्ट दर्ज कराई थी अलमारी को तोड़कर अलमारी में रखे सोने की अंगुठी, चांदी के आभूषण व 5 हजार रूपये नकदी चोरी कर ले गये। पुलिस ने विशाल उर्फ लाला (22) पुत्र घनश्याम महाजन निवासी मोहल्ला बुचाहेड़ा व राजेश माथूर (29) पुत्र बाबूलाल निवासी मोहल्ला बुचाहेड़ा, कोटपुतली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक जोड़ी पाजेब चांदी धातु जेसी व एक चांदी की धातु जेसे दिखने वाली स्याह माता व 2 हजार रूपये, एक चैन गले की व दो चांदी की धातु जेसे दिखने वाले सिक्के बरामद किये है।

क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारम्भ



जिला परिषद सदस्य ने क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारम्भ।

का भी होता है निर्माण। बड़ी संख्या में मौजूद खिलाड़ियों व ग्रामीणों की मांग पर डीआर ने विश्वास दिलाया कि खेल मैदान पर चार दिवारी निर्माण के लिये जिला कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ से मिल चार दिवारी निर्माण का करवाया

जायेगा कार्य। कप्तान सुनिल मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता में पहुंची दस टीमों के निष्पक्ष मुकाबले करवाये जायेगे। प्रथम विजेता को 11 हजार व द्वितीय विजेता को 5100 रूपये दिया जायेगा पुरस्कार

विधायक ने की दीपावली की रामा श्यामा

शाहपुरा। शाहपुरा कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने सोमवार को दीपावली के महापर्व पर सभी शहर वासियों से रामा श्यामा का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत कस्बे के नारायण स्मृति पार्क से हुई उसके बाद काफी कार्यक्रमों के साथ सस्वी मंडी, अनाज मंडी तिराहा, न्यू बस स्टैंड, मुख्य बाजार नीमकाथाना, रावड़, चौधड़ व दिल्ली रोड के सभी दुकानदारों से मुलाकात करते हुए दीपावली पर्व की शुभकामनाएं और रामा श्यामा का। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन बन्नी सैनी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नाथू सैनी, पूर्व चेयरमैन प्रेम देवी, मुकेश खुदगनिया, वाईस चेयरमैन राजेंद्र शरण, नेता प्रतिपक्ष गिरधारी जाट, रामेश्वर गोरटा, पार्षद विपिन गुप्ता, पार्षद घनश्याम सैनी, पार्षद रामस्वरूप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामवतार गुर्जर, राजेंद्र पलसानिया, राजेंद्र शर्मा, उम्मेद पलसानिया, निहाल, लोकेश, अक्षय, विशाल, सहित काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे।

कमलेश सैनी के नेतृत्व में 11 बजे निम्नी सचिवालय के बाहर कटूमर विधायक रमेश खींची का पुतला दहन कर कल सम्पन्न हुई जिला परिषद की बैठक में कांग्रेस को भरतपुर से सांसद संजना जाटव के साथ हुए दुर्लभवार और अपमान के विरोध स्वरूप आक्रोश

प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायथवाल को महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंप कर सरपंचों द्वारा लाखों रूपये के नोटों की माला विधायक रमेश खींची को अधिकारियों के मौजूदगी पहनाना खुले आम भ्रष्टाचार का नमूना है।

जिसे मीडिया के माध्यम से विधायक जी खुद स्वीकार कर रहे है। अधिकारियों इसमें मौन रहकर सहयोगी का कार्य कर रहे है। सांसद संजना जाटव द्वारा इस मुद्दे को जिला परिषद की बैठक में उठाया जाता है तो उन्हें अपमानित किया जाता है जो घोर निन्दनीय है। इसकी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है। विरोध प्रदर्शन में एडवोकेट बबीता दिल्लीवाल, जितकीर सांगवान, डॉ पायल विजय सिंह चौधरी, लीली यादव, जूहरी खान, पार्षद बीना नरुका, पूर्व पार्षद उर्मिला सैनी, कमला किरण सैनी, लीलावती सैनी, पार्वती देवी, दया सैनी, सुगना देवी जाटव, शारदा देवी, अंगुरी देवी, दिव्या सैनी, मनीषा अंशुल सैनी, सरोज सैनी, चंनू देवी राजपूत, कमलेश राणा, हरी देवी राजपूत, हेमलता सैनी, आरती सैनी, फूलवती देवी, पुष्पा देवी सैनी, शान्ति देवी, अमोना खान सहित सैकड़ों की संख्या में महिला शामिल हुईं।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

अलवर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आर्तिका शुक्ला ने 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक मनाए जाने वाले धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने हेतु संबंधित उपखंड मुख्यालय के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं संबंधित तहसीलदार क्षेत्र के लिए संबंधित तहसीलदार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। संबंधित मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में साम्प्रदायिक सौहार्द, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वर्तमान में विधानसभा चुनाव 2024 हेतु निर्वाचन कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

क्षेत्र में समकक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ निरन्तर घ्रमण करते हुए निगरानी रखें तथा आदर्श आचार संहिता की पालना करायें जाना सुनिश्चित करावे, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जावे, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी/व्याप्योचित कार्रवाई की जावे।

सार-समाचार

हस्त निर्मित वस्तुओं की स्टॉल लगाई

अलवर। संकल्प महिला सशक्तिकरण समिति अलवर की ओर से अलवर पुलिस लाइन के पास महिलाओं द्वारा निर्मित किए गए सामानों की स्टॉल लगाई गई संस्थापिका कल्पना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी समिति महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्हे स्टाॅल में अवमानक की स्वालंभी बनाने के लिए उन्हें अनेकों प्रकार के हनर सिखाए जाते है और इसी हनर के आधार पर उन्हें रोजगार समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर समिति की महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं को स्टाल पुलिस लाइन अलवर के पास लगाई गई है जिसमें आचार, जूट बैग, मिठाईयां महिलाओं के सौन्दर्य आईटम सहित अनेकों वस्तुओं को लगाया गया है। उनका मानना है कि अगर लोग महिलाओं द्वारा हाथों से तैयार इन वस्तुओं को खरीदते है तो इससे उन महिलाओं का हौसला बढ़ेगा और उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे इस अवसर पर उनके साथ समिति अध्यक्ष सिम्मी जायसवाल सहित अनेकों महिला कार्यकर्ता मौजूद रही।

टिकट बुकिंग खिड़की से यात्री परेशान

फुलेरा। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को सुविधा हेतु टिकट बुकिंग खिड़की पर लगाये गये ऑन-लाइन पेमेंट के इंस्ट्रुमेंट नाकाफ साबित हो रहे है। गौरतलब है कि फुलेरा जंक्शन पर टिकट बुकिंग खिड़की पर ऑनलाइन से पेमेंट करने के लिए लगे हुए इंस्ट्रुमेंट में दैनिक रेल यात्रियों व आम यात्रियों का ऑनलाइन से पेमेंट करना की का जंजाल बना हुआ है। इसके माध्यम से पेमेंट ऑनलाइन किया जाता है। इसके चलते बूक से पेमेंट कट भी जाता है मगर रेलवे के खाते में आने से मना कर दिया जाता है। जबकि बैंक से राशि रेलवे के अकाउंट में जमा हो जाती है। इसके बावजूद बुकिंग पर कर्मचारियों द्वारा मना कर दिया जाता है। इसके चलते पैसंगर्ज द्वारा कैश पेमेंट देने के बाद टिकट बनाया जाता है या अपना मंथली सर्जन टिकट बनाया जाता है। जानकारी के अनुसार पैसंगर्ज के जो पैसे कटते है वह पैसे 2 महीने बाद भी वापस अकाउंट में नहीं आते है। जानकारी के अनुसार फुलेरा निवासी संदीप कुमार, राजकुमार कुमावत सहित अन्य कई दैनिक रेल यात्रियों व आम यात्रियों के साथ साथ ऐसा हो चुका है। उपरोक्त समस्याओं को लेकर दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत फुलेरा के अध्यक्ष अशोक वासदेव ने बताया कि इस संबंध में संबंधित बुकिंग कर्मचारी अथवा संबंधित अधिकारी भी अपने हाथ खड़े कर देते है वह पैसा कहां जाता है इसकी जिम्मेदारी कोई भी अधिकारी नहीं लेते है। वहीं आगे बताया कि इस तरह कई समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी क्रम में आगे बताया कि ऐसा कई यात्रियों के साथ हो चुका है। इस सम्बन्ध में दैनिक रेल यात्रा संघ एकीकृत द्वारा सीनियर डीसीएम के. के. मीना, सी.एम.आई. विनय कुमावत को भी अवगत करवाया जा चुका है।

सलाहकार बनने पर खुशी जाहिर की

मनोहरपुर। राम प्रकाश मंडल अध्यक्ष प्रहलाद गुर्जर मंडल महामंत्री जमील खान मंडल संयोजक मंडल मिश्रा रमेश गोयल मंडल कोषाध्यक्ष नंदलाल गुर्जर सिद्धार्थ गुर्जर पूरणमल बेनीवाल भगवान सहाय बेनीवाल दिनेश माध्यामी महावीर कुमावत मामराज कुमावत लालचंद सैनी हजारीलाल सैनी मंडल महामंत्री गणेश नारायण मंडल महामंत्री लक्ष्मी नारायण मोहन प्रिया संदेश चौधरी महेश भाग्या शंभू राम गुर्जर रामवतार केतवाल जीतू काला गोरा शो राम गुर्जर जयगाम गुर्जर सीताराम गुर्जर रामवतार गुर्जर भैरू राम जाट भगवान सहाय गोरा शंभर सिंह गुर्जर रामचंद्र यादव शंकर यादव बंसी देवी यादव अजीत मेला शुद्धराम यादव प्रभु दयाल शर्मा बाबूलाल गुर्जर मुरली गुर्जर उषेंद्र आत्रेय जितेंद्र सोनी सुरेश यादव सरपंच बलबीर यादव नवलपुर प्रताप सरपंच प्रतिनिधि पवन बुनकर हंसराज बुनकर राहुल मिश्रा रोहित शर्मा अमर सिंह कुमावत मनीष कुमावत नवल बुटोल बंगाली पूरण मल महिपाल गुर्जर पीएचजी सुरेश सेन महेश सेन ओमप्रकाश मिश्री मामराज जांगिड़ पवन जांगिड़ राजेंद्र कुमार कृष्णा स्कूल स्याम लाल इकबाल खान सरफराज खान मोर्चा मंडल अध्यक्ष अमरचंद गोयल मनोहरपुर के मंडल के लोगों ने संतोष माध्यामी को बीएसएमडल सलाहकार बनने पर खुशी जाहिर की और जमकर आतिशबाजी कर बधाइयां दी है।

स्नेह मिलन पांच नवम्बर को

फुलेरा। कस्बे के निकटवर्ती धार्मिक स्थल भन्दे बालाजी परिसर स्थित प्रजापति समाज धर्मशांला परिसर में आगामी 5 नवम्बर को श्री ब्रह्मा प्रजापति विवाह एवं विकास समिति की आवश्यक मीटिंग में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जायेगा। इस दौरान समिति के पदाधिकारी और प्रजापति समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त जानकारी समिति के अध्यक्ष हुकमराम दम्बीवाल के द्वारा दी गई।

ज्ञापन सौपा

दुदु। 28 अक्टूबर जिले के अधीन मोजामबाद पुलिस थाना क्षेत्र के गांवों में गत एक माह के दौरान पशुपालकों को भेड़ भेड़ चोरी की 24 वारदातों का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं करने पर मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस थाना प्रभारी मोजामबाद संजय मीणा को उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन पेश कर वारदातों का खुलासा करने की मांग की है भेड़ पलकों की प्रतिनिधि मंडल ने गुर्जर समाज के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन पेश कर अवगत कराया की एक माह में करीब 24 पशुपालकों के यहां भेड़ की चोरी की वारदातें हुई है सभी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कर दी गई लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे है इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दीपक खंडेलवाल द्वारा भेड़ पलकों को शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन देने के बाद प्रतिनिधिमंडल द्वारा पुलिस को समय दिया गया है इस दौरान रामजीवन गुर्जर शिवजी राम मनरूप चौधरी प्रभु गुर्जर अन्य पशुपालक मौजूद रहे

सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

अलवर। जिला कलेक्टर डॉ आर्तिका शुक्ला ने अतुल्य अलवर स्वच्छता अभियान की नोडल अधिकारी प्रियंका आईएस सुशी सोनू कुमारी एवं नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरुका ने आज शहर के मुख्य मार्गों पर दौरा कर सफा-सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कनारा नालियों में नहीं डालें एवं प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। इस दौरान निगम आयुक्त ने बताया कि त्यौहार के सीजन को देखते हुए मुख्य मार्गों पर कचरा संग्रहण वाहन शाम के समय भी चलाया जाएगा ताकि सड़क पर कचरा नहीं फैले। उन्होंने बताया कि निगम की ओर से लगातार मॉनिटरिंग का जा रही है। विभागीय अधिकारी वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं जिसमें ग्रेप-2 के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। शहर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेप-2 की पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए नगर निगम की अतिक्रमण निरोधक शाखा और निर्माण शाखा की ओर से आज कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती मंडी के पीछे वार्ड नम्बर 14 में एक निर्माणधीन भवन के मालिक की 21 हजार रूपए की शांति लगाई गई। इस दौरान सहायक अभियंता एन के शर्मा और कनिष्ठ अभियंता मुस्तफा खान भी मौजूद रहे।

मिट्टी के बर्तन खरीदने की अपील

कोटपुतली। दीपावली पर्व पर जिला कलेक्टर द्वारा आदेश निकाले जाने पर कस्बे के मुख्य मार्गों पर मिट्टी के बर्तन बेचने वाले कामगारों को दक्ष छात्रावास व प्रशाना अध्यक्ष बस्तीराम प्रजापत मोरदा के नेतृत्व में जागरूक किया गया। जिसमें परम्परागत माटी शिल्पियों को उनके माटी उत्पादों दीपक, सुराई, मटके, कलश, खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां, सजावटी सामान आदि को बढ़ावा देने के लिए अवसर मिल सकें। भारत की परम्परागत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष बस्तीराम प्रजापत ने क्षेत्रवासियों को स्वदेशी मिट्टी के बर्तन खरीदने की अपील की। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश प्रजापति पूतली ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुंभकार समुदाय के परंपरागत शिल्पियों द्वारा मिट्टी के दीपक एवं अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। दीपावली व अन्य त्यौहारों पर माटी कला क्षेत्र से जुड़े कारीगरों को बाजारों में उचित स्थान नहीं मिल पाता है।

मैडिकल इमरजेंसी टीम गठित करने के दिये निर्देश

कोटपुतली। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक एडीएम ओमप्रकाश सहाराण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एडीएम ने जिला नेशनल हाईवे पर स्थित होने के कारण आपातकालीन मैडिकल स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल में मैडिकल इमरजेंसी टीम गठित करने के निर्देश दिये। जो किसी भी मैडिकल इमरजेंसी में तुरंत प्रभाव (ऑन कॉल) उपलब्ध हो। उन्होंने कहा की इन टीमों के गठन से किसी भी आपातकालीन स्थिति में मैडिकल तथा पैरामैडिकल स्टॉफ मैडिकल इमरजेंसी में तुरंत उपलब्ध हो सकेंगे।



भारत के स्टाफ बल्लेबाजों ने पिछले कुछ वर्षों में टर्निंग स्पिन पर खेलने से अपना आत्मविश्वास खो दिया है जिससे उनके धरोरु औसत में गिरावट आई है और उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। - हरभजन सिंह

भारतीय गेंदबाज, भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बोलते हुए।



आज का खिलाड़ी



पाकिस्तान की सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच गैरी कस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मतभेद पैदा होने के कारण अपनी नियुक्ति के छह महीने के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत की 2011 में वनडे विश्व कप की चैंपियन टीम के कोच रहे 56 वर्षीय कस्टन को

गैरी कस्टन

राष्ट्रपति जयपुर, 29 अक्टूबर, 2024

5

चोटिल जाकेर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट से बाहर



चटगांव, 28 अक्टूबर। विकेटकीपर बल्लेबाज जाकेर अली चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर महिदुल इस्लाम अंकोन को टीम में जगह दी गई है। जाकेर को रिविवा को चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में प्रशिक्षण के दौरान चोट लगी थी। बांग्लादेश के फिजियो बैजदुल इस्लाम खान ने कहा, जाकेर अली को कल बल्लेबाजी अभ्यास के दौरान चोट लगी थी। उन्हें पहले भी चोट लग चुकी है उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। जाकेर अली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बांग्लादेश की दूसरी पारी में टेस्ट पदार्पण करते हुए अर्धशतक बनाया था। जाकेर की जगह महिदुल इस्लाम को टीम में जगह दी गई है। महिदुल ने पिछले सप्ताह सिलहट डिवीजन के खिलाफ 118 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में हैं।

राजस्थान-गुजरात रणजी मैच राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की घातक गेंदबाजी

जयपुर, 28 अक्टूबर। आरसीए एडवॉक कमेटी संयोजक व विधायक जयदीपबिहागी के अनुसार बीसीसीआई के धरोरु क्रिकेट सत्र 2024-25 की राष्ट्रियक्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी के जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम पर राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में खेले जा रहे राजस्थान - गुजरात रणजी मैच के तीसरे दिन मैच रोमांचक मोड़ पर। गुजरात दूसरी पारी 129/4 तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक गुजरात ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए थे। राजस्थान के गेंदबाज अनिकेत चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गुजरात टीम के सलामी बल्लेबाजों को टीम के 15 रन के स्कोर परपेवेलियनलौटा दिया। राजस्थान के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के सामने शुरूआतीइंटकों के बाद गुजरात टीम ने अपनी दूसरी पारी में संभल कर खेलते हुए तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए थे। राजस्थान के गेंदबाज अनिकेत चौधरी दिन के सबसे सफल गेंदबाज रहे। अनिकेत चौधरी 25/3 व अजय सिंह कुकना 43/1 विकेट प्राप्त किये। राजस्थान पहले पारी 194/8 राजस्थान ने आज मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना लिए थे। टीम के बल्लेबाजसचिन यादव 49, करण लाम्बा 37, मुकुल चौधरी 28, निखिल सचदेव 27, राज शर्मा 13 व दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अशोक शर्मा नाबाद 12 व चेतन शर्मा नाबाद 1 रनबनाकर खेल रहे थे। बीसीसीआई सीनियर वीमेन टी 20 ट्रॉफी-राजस्थान-मेघालय मैच राजस्थान की जीत में आयुषीगर्ग, सुमित्रा जाट, ज्योति चौधरी, रिकू टांक व शानू सेन चमकी बीसीसीआई द्वारा त्रिवेंद्रम में आयोजित की जा रही बीसीसीआई सीनियर वीमेन टी 20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज राजस्थान-मेघालयटीमें के मध्य खेले गए मैच में राजस्थान ने शानदार जीत दर्ज की। राजस्थान की जीत में आयुषीगर्ग के अर्धशतकीय पारी, राजस्थान पारी 141/2

भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर मंडल द्वारा स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

जयपुर, 28 अक्टूबर। भारतीय स्टेट बैंक, मण्डल कल्याण समिति, जयपुर मण्डल के तत्वाधान में मण्डल स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन 6 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक (अवकाश दिवसों पर) किया गया, जिसमें शतरंज, टेबल टेनिस, वालीबाल, कैरम, बेडमिंटन, कबड्डी एवं क्रिकेट जैसे खेल शामिल थे। इन खेलों में स्थानीय प्रधान कार्यालय, कॉंप्यूटि केंद्र की संस्थापनाओं, प्रशासनिक कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ सभी शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान शतरंज, टेबल टेनिस, वालीबाल के फाइनल 13 अक्टूबर को तथा कैरम, बेडमिंटन, कबड्डी एवं क्रिकेट खेलों के फाइनल मैचों का आयोजन 26 अक्टूबर 2024 को स्थानीय प्रधान कार्यालय, सवाई मानसिंह स्टेडियम एवं सी-3 क्रिकेट ग्राउंड एंड परफॉर्मेंस अकादमी में रखा गया। खेलों के दौरान सभी प्रतिभागियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया।

ड्रेपर ने जीता खिताब वियना, 28 अक्टूबर। ब्रिटेन के जैक ड्रेपर ने रूस के कारेन खानानोव को 6-4, 7-5 से हराकर वियना ओपन का खिताब जीता। रिविवा को हुये मुकाबले में ड्रेपर ने पहला सेट जीता और दूसरे सेट में 4-0 की बढ़त बनाई। ड्रेपर ने लय के साथ खेलते हुए अपना पहला एटीपी 500 खिताब और दूसरा एटीपी टूर खिताब जीता।

लक्ष्मण दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम के कोच

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बीबीएस लक्ष्मण साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया के कोच बनाए गए हैं। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है। ऐसे में लक्ष्मण को वाइट बॉल टीम का कोच बनाया गया है, भारतीय टीम को अगले महीने साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है। यह सीरीज 8 नवंबर से खेली जाएगी। लक्ष्मण के साथ नेशनल क्रिकेट अकादमी से जुड़े साईराज बहुतुले, ऋषिकेश कानिटेकर और सुभादीप घोष सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर जाएंगे। बहुतुले हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप के लिए इंडिया-ए के मुख्य कोच थे। वहीं, कानिटेकर बैटिंग कोच और सुभादीप घोष फील्डिंग कोच थे। साउथ अफ्रीका के लिए टीम 4 नवंबर के आसपास रवाना होगी। भारत 8, 10, 13 और 15 नवंबर को क्रमशः डरबन, गेबेरा, संचुरियन और



जोहान्सबर्ग में चारट टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा। 25 अक्टूबर (शुक्रवार) को चारट टी-20 मैचों के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुआई में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैशाक, आवेश खान, यश दयाल।

पुणे टेस्ट में हार के लिए बैटर दोषी : मांजरेकर

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने पुणे में दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड से मिली हार के लिए भारतीय बल्लेबाजों को जिम्मेदार माना है। साथ ही उन्होंने सरफराज खान से पहले वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा की आलोचना की है। पुणे टेस्ट में भारत को हराने के साथ ही न्यूजीलैंड ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है और सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। भारत को 12 साल बाद घरेलू सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। संजय ने क्रिकेट की वेबसाइट क्रिकइंफो से पुणे टेस्ट में भारतीय हार के वजहों पर बातचीत की।

पूरन, मयंक और विशनोई को रिटैन कर सकती है

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स, कैरेबियन विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन, भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव और स्पिनर रवि बिश्नोई को रिटैन कर सकती है।

सभी क्रिकेट प्रशंसकों और बीसीसीआई से माफी : शमी

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने प्रशंसकों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से माफी मांगी है क्योंकि बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनकी वापसी में जल्दबाजी नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि वह अभी तक मैच फिटनेस हासिल नहीं कर पाए हैं। शमी ने सर्जरी करवाने के बाद राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में अपना 'रिहैबिलिटेशन' पूरा किया। लेकिन उनके घुटनों में सूजन के कारण उनकी वापसी की योजना में रूकावट आई। हालांकि शमी ने हाल में घोषणा की थी कि उन्हें कोई दर्द नहीं है। शमी ने इन्स्टाग्राम पर अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि वह जल्द ही वापसी करेंगे। इस 34 वर्षीय गेंदबाज ने कहा, "मैं प्रयास कर रहा हूँ और दिन-प्रतिदिन अपनी गेंदबाजी



फिटनेस में सुधार कर रहा हूँ। मैच के लिए तैयार होने और धरोरु लाल गेंद क्रिकेट खेलने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखूँगा। सभी क्रिकेट प्रशंसकों और बीसीसीआई से भी माफी मांगता हूँ। लेकिन जो कि उन्हें कोई दर्द नहीं है। शमी ने इन्स्टाग्राम पर अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि वह जल्द ही वापसी करेंगे। इस 34 वर्षीय गेंदबाज ने कहा, "मैं प्रयास कर रहा हूँ और दिन-प्रतिदिन अपनी गेंदबाजी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रन फोर यूनिटी को दिखाएंगे हरी झंडी



जयपुर, 28 अक्टूबर। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में 29 अक्टूबर को रन फोर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसी कडी में मंगलवार को युवाओं की नगरी में भी इसका आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रातः 07:00 बजे अमर जवान ज्योति से हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना करेंगे। राजस्थान राज्य क्रोडा परिषद के सचिव, राजेन्द्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि रन फोर यूनिटी दौड़ के



अवसर पर आम जनों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। इस दौड़ में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों सहित प्रशिक्षकगण, विभिन्न रनर्स क्लब, सामाजिक संघटनों के प्रतिनिधि, स्कूल कॉलेजों के छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि रन फोर यूनिटी दौड़ सवाई मानसिंह स्टेडियम से प्रारम्भ होकर विधानसभा, नगर निगम, अर्जुन गेट, रामबाग सर्किल और अम्बेडकर सर्किल से होते हुए वापिस सवाई मानसिंह स्टेडियम के 5 नम्बर गेट पर समाप्त होगी। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव और राजस्थान राज्य क्रोडा परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज के. पवन ने सोमवार की रात को तैयारियों का जायजा लिया। डॉ. पवन ने इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव राजस्थान राज्य क्रोडा परिषद राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, नगर निगम जयपुर ग्रेटर के डिट्टी कामिस्वर प्रियवर्ति सिंह चारण सहित खेल परिषद के अधिकारी उपस्थित थे।

एआईएफएफ डी लाईसेंस फुटबॉल कोचिंग कोर्स का समापन बीकानेर में, 28 अभ्यर्थियों ने भाग लिया



जयपुर, 28 अक्टूबर। 13 आरपीसी स्थित चैन सिंह स्टेडियम में जिला फुटबॉल संघ बीकानेर के तत्वाधान में जारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन डी लाईसेंस फुटबॉल कोचिंग कोर्स का समापन आज हुआ, कोर्स प्रभारी भैरुनत ओझा ने बताया की 24 अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस पांच दिवसीय कोर्स में पूरे प्रदेश से 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया, कोर्स में पांचों दिन तीन सेशन में एआईएफएफ इन्स्ट्रक्टर प्रियदर्शन ने फुटबॉल कोच की बारीकियाँ सिखाई तथा प्रैक्टिकल एजाम एवं थ्योरी एजाम भी लिया जिसके परिणाम के आधार पर फुटबॉल कोच चयनित किए जाएंगे। आज हुए समापन समारोह में मुख्य अतिथि अर्जुन अर्वाडी मगन सिंह राजवों, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी देवी सिंह राजवों, संघ उपाध्यक्ष रहमत अली, फुटबॉल कोच भीम सिंह भाटी द्वारा प्रतिभागियों को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया इस मौके पर श्री राजवों ने कहा की राजस्थान फुटबॉल संघ पिछले काफी समय से अच्छा काम कर है जिसका लाभ प्रदेश के फुटबॉल खिलाड़ियों को मिल रहा है, वहीं संच उपाध्यक्ष रहमत अली ने कहा की राजस्थान फुटबॉल संघ और जिला फुटबॉल संघ बीकानेर के तालमेल से बड़े बड़े

आयोजन की मेजबानी बीकानेर कर रहा तथा आरएफए सचिव दिलीप सिंह शेखावत की सक्रियता का ही परिणाम है की एआईएफएफ राजस्थान को अनेकों आयोजनों की मेजबानी दे रहा हुआ, इन्स्ट्रक्टर प्रियदर्शन ने राजस्थान फुटबॉल संघ और जिला फुटबॉल संघ का धन्यवाद ज्ञापित किया की ऐसे आयोजनों से प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा साथ ही कहा की एक सकारात्मक कोच खेल ही नहीं समाज को भी प्रगति की और ले जाता है तथा सभी कोच से निष्ठा और लगन के साथ कार्य करने की अपील की, सह आयोजक बीकानेर फुटबॉल क्लब के उमेश सिंह शेखावत ने कहा की जिला फुटबॉल संघ सचिव अरविंद सिंह राठौड़ के कार्यकाल में बीकानेर नई बुलंदियों को खू रहा है तथा लगातार फुटबॉल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है।

खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह ने लांच किये 3 पोर्टल

जयपुर, 28 अक्टूबर। राजस्थान के युवाओं और खिलाड़ियों को अब इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इनकी सुविधा के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा तीन पोर्टल लांच किए गए हैं। अब उन्हें एकल विन्डो की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। खेल मंत्री डॉ. कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने जिन तीन पोर्टलों को लांच किया है, उसमें ब्लॉक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर "युवा महोत्सव" में युवाओं का रजिस्ट्रेशन पोर्टल, "राजस्थान यूथ आईकॉन अवॉर्ड" का रजिस्ट्रेशन पोर्टल और खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स प्रमाण-पत्र के लिए "डिजिटल रिपोर्टिंग" पोर्टल शामिल है।



खेल मंत्री, युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा सोमवार को लांच किए गये पोर्टल का उद्देश्य राज्य की विभिन्न सूचनाओं को एकीकृत स्त्रोत के रूप में इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं

व खेलों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों एक ही जगह उपलब्ध हो सकें। कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने पोर्टल लांचिंग के बाद कहा कि अब रिपोर्टिंग पोर्टल खिलाड़ियों को उनके सभी खेल प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देगा, जिससे उन्हें भौतिक प्रमाण पत्रों की सुरक्षा की चिंता नहीं करना पड़ेगी। खेल मंत्री ने बताया कि विभिन्न बजट घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग की वेबसाइट पर पोर्टल तैयार किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर ल्वनजी क्ल (12 जनवरी) के अवसर पर "राज्य युवा महोत्सव" आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

// राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ // राज्य हैंडबॉल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी

केवल रजिस्टर्ड खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे

जयपुर, 28 अक्टूबर। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ ने सोमवार को सत्र 2024-25 की सब जूनियर, जूनियर तथा सीनियर राज्य हैंडबॉल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी कर दिया। इन प्रतियोगिताओं में केवल रजिस्टर्ड खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। जिनके पास आरएच-पिन नंबर होगा। जिन खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे खिलाड़ी राज्य हैंडबॉल संघ की वेबसाइट पर लॉगिन कर रजिस्टर्ड करें। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 29वीं राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता (बालक व बालिका) का आयोजन जालौर में 14 से 17 नवंबर तक होगा। इसमें 01.01.2010 को या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार 41वीं राजस्थान राज्य जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता (बालक व बालिका) का आयोजन चित्तौड़गढ़ में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा। इसमें



01.01.2005 को या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि 47वीं राजस्थान राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जय भवानी हैंडबॉल अकादमी द्वारा श्रीगंगानगर में 6 से 9 दिसंबर तक किया जाएगा। जबकि राज्य सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बारां में 14 से 17 दिसंबर तक किया जायेगा। यश प्रताप सिंह ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के दौरान ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिये राज्य के संभावितों का चयन भी किया जायेगा।

भारत सरकार कांफोर्टे कार्य मंत्रालय त्वरित कॉंपोर्टे समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस), आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7^थ मंजिल, प्लॉट P-6,7,8, से-5, आई.एम.टी. मनेसर, गुर्गाँव, हरियाणा - 122050. Email: roc.cpace@mca.gov.in

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB0581523	U64920R2023PTC090857	अर्णव्यामिन माइक्रोफाइननेस प्राइवेट लिमिटेड
2	AB0386156	U72200R2019PTC064708	हाइपेज मीडिया एंड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड
3	AB0370329	U27107R1994PTC008571	महेश मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB0367838	U70200R2017PTC057916	कटिया रियल्टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AB0319573	U14294R2022PTC084043	स्टोनवर्स डीआरसी मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड
6	AB0277148	U52520R2021PTC076664	आरू फिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
7	AB0136951	U72900R2022PTC083618	सुबुवाल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
8	AB0099718	U45309R2021PTC074994	केएंड सी कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB0091117	U31102R2009PTC030231	सुपर पावर ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड
10	AB0091048	U62099R2023PTC086387	पीएक्सडीपी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
11	AA9798949	U85100R2020PTC072677	माय टेली हॉस्पिटल एट होम प्राइवेट लिमिटेड
12	AA10045136	U01100R2020PTC068633	दशमी सौड प्राइवेट लिमिटेड
13	AA10019597	U21023R2013PTC041398	बीएचजी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1043 दिनांक-25/09/2024

संदर्भ: 1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (13) कम्पनियों का नाम राजस्थान राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB0581523	U64920R2023PTC090857	अर्णव्यामिन माइक्रोफाइननेस प्राइवेट लिमिटेड
2	AB0386156	U72200R2019PTC064708	हाइपेज मीडिया एंड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड
3	AB0370329	U27107R1994PTC008571	महेश मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB0367838	U70200R2017PTC057916	कटिया रियल्टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AB0319573	U14294R2022PTC084043	स्टोनवर्स डीआरसी मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड
6	AB0277148	U52520R2021PTC076664	आरू फिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
7	AB0136951	U72900R2022PTC083618	सुबुवाल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
8	AB0099718	U45309R2021PTC074994	केएंड सी कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB0091117	U31102R2009PTC030231	सुपर पावर ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड
10	AB0091048	U62099R2023PTC086387	पीएक्सडीपी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
11	AA9798949	U85100R2020PTC072677	माय टेली हॉस्पिटल एट होम प्राइवेट लिमिटेड
12	AA10045136	U01100R2020PTC068633	दशमी सौड प्राइवेट लिमिटेड
13	AA10019597	U21023R2013PTC041398	बीएचजी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आदेश प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आदेश नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है। 3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है। 4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

